

अध्या. २५५

प्र. नं. ४३८



Serving Jin Shasan



049391

gyanmandir@kobatirth.org

॥ श्रीजिनाय नमः ॥
(श्रीमेरुतुङ्गसूरिविरचितं)
॥ श्रीनाभाकराजचरित्रम् ॥
(गूर्जरभाषांतरोपेतं)
छपावी प्रसिद्ध करनार
पंडित श्रावक हीरालाल हंसराज

वीर संवत् २४५९

किंमत रु. १-४-०

विक्रम संवत् १९८९

श्री. श्री. कल्याणमालर खरि ज्ञान मंदिर
श्री महाशंकर जैन आराधना केंद्र, कोबा
का. कि.

नाभाक

॥ १ ॥

॥ श्रीआर्यरक्षितगुरुभ्यो नमः ॥
॥ श्रीविधिपक्षगच्छाचार्य—श्रीमेरुतुङ्गसूरिविरचितम् गूर्जरभाषानुवादसमलंकृतम् ॥

॥ श्रीनाभाकराजचरित्रम् ॥

सौभाग्यारोग्यभाग्योत्तममहिममहिख्यातिकान्तिप्रतिष्ठा-तेजःशौर्योर्जसम्पद्दिनयनययशःसन्ततिप्रोतिमुख्याः
भावा यस्य प्रभावात् प्रतिपद् उदयं यान्ति सर्वे स्वभावात् श्रीजीरापल्लिराजः स भवतु भगवान् पार्श्वदेवो मुदे वः
भावार्थ—जे प्रभुना माहात्म्यथी सौभाग्य, आरोग्य, भाग्य, उत्तम महिमा, सद्बुद्धि, प्रसिद्धि, कांति, सुकीर्ति, तेज शौर्य, बळ, संपत्ति, विनय, सुनीति, यज्ञ पुत्र पुत्रादि परिवार, प्रीति विगेरे सर्वे पदार्थो निरन्तर स्वाभाविक उदय आवे छे, ते श्रीमान् जीरा-
पल्लि अधिराज पार्श्वनाथ भगवान् तमारा हर्षने माटे थाओ ॥ १ ॥

श्रीवीरजिनमानम्य, सम्यग् नाभाकभूपतेः । देवद्रव्याधिकारेऽद-श्चरितं कीर्तियिष्यते ॥ २ ॥

अर्थः—प्रभु श्रीमहावीरने सम्यक्प्रकारे नमस्कार करीने, देवद्रव्यना अधिकार उपर श्रीनाभाकराजानुं चरित्र कहीश. ॥ २ ॥

श्रीनाभाकनरेन्द्रस्य, कथा श्रुतिपथागता । विद्येव जांगुली लोभ-विषं हन्ति विवेकिनाम् ॥ ३ ॥

चरित्रं

॥ १ ॥

ना श्री कैलासबाग सूरि ज्ञान बंधिर
श्री महाचार जैन आराधना कर्तु, कोबा
का. कं.

अर्थ—जेम जांगुली मंत्र सर्पना विषनो विनाश करे छे. जांगुली मंत्रथी सर्पतुं विष उतरी जाय छे, तेम श्रवणपथमां आवेली देवद्रव्य परत्वेनी आ नाभाकनरेन्द्रनी कथा विवेकी पुरुषोना लोभरूपी विषनो विनाश करे छे. ॥ ३ ॥

श्रीनाभाकनृपाख्यान—पानप्रीतमनाः पुमान् ॥ सदां सन्तोषसंतुष्टः, सर्वसम्पत्तिभागभवेत् ॥ ४ ॥

अर्थः—जे पुरुष श्रीनाभाकराजानी कथानुं पान करवामां हर्षित चित्तवाळो छे, ते निरन्तर संतोषवडे संतुष्ट थइ सर्व प्रकारनी समृद्धिने भजवावाळो थाय छे—ते पुरुषने सर्व प्रकारनी समृद्धि अनायासे प्राप्त थाय छे. ॥ ४ ॥

पुरातनमुनिप्रोक्तं, पुण्यं पुण्यार्थिनां प्रियम् । नाभाकचरितं चित्री—यते केषां न चेतसि ? ॥ ५ ॥

अर्थः—प्राचीन महर्षिओए कहेलुं, अने पुण्यना अर्थी भव्य प्राणीओने अतीव प्रियकर एवं श्रीनाभाकराजानुं पवित्र चरित्र कोना चित्तमां आश्चर्य नथी करतुं? अर्थात् पवित्र महापुरुष श्रीनाभाकराजानुं चरित्र असाधारण अने निर्दोष होवाथी दरेक पुरुषोना चित्तने विषे आश्चर्य उत्पन्न करनाहं छे. ॥ ५ ॥

जंबूद्वीपाभिधे द्वीपे, क्षेत्रे भरतनामके । श्रीपार्श्वनाथश्रीनेमि—नाथयोरन्तरेऽभवत् ॥ ६ ॥

अनेकश्रीपतिब्रह्म—जिष्णुश्रीदविभूषितम् । क्षितिप्रतिष्ठितं नाम, पुरं स्वर्पुरजित्त्वरम् ॥ ७ ॥

अर्थ—जंबूद्वीप नामना द्वीपने विषे भरतक्षेत्रमां श्रीपार्श्वनाथ अने श्रीनेमिनाथ जिनेश्वरने आंतरे क्षितिप्रतिष्ठित नामनुं नगर हतुं,



जे नगर अनेक श्रीपति, अनेक ब्रह्म, अनेक जिष्णु, अने अनेक श्रीद वडे शोभायमान होवाथी तेणे स्वर्गपुरने पण जीती लीधुं हतुं ।
 स्वर्गपुरनी अंदर श्रीपति एटले कृष्ण एकज छे, ज्यारे क्षितिप्रतिष्ठितनगरमां श्रीपति एटले साहुकारो तथा राजाओ अनेक हता ।
 स्वर्गपुरनी अंदर ब्रह्म एटले ब्रह्मा एकज छे, ज्यारे आ नगरमां ब्रह्म एटले ब्राह्मणो अनेक रहेता हता । स्वर्गपुरनी अंदर जिष्णु
 एटले इन्द्र एकज छे, ज्यारे आ नगरनी अंदर जिष्णु-जयनशील एटले विजेता मोटा मोटा सामंतो तथा योद्धाओ अनेक हता ।
 स्वर्गपुरमां श्रीद एटले कुबेर एकज छे, ज्यारे आ नगरनी अंदर श्रीद एटले लक्ष्मीनुं दान करनारा दानवीर पुरुषो अनेक हता ।
 आ प्रमाणे दरेक रीते स्वर्गपुरथी क्षितिप्रतिष्ठितनगर चडियातुं हतुं ॥ ६-७ ॥

सर्वाङ्गरत्नाभरणाभिभूषितै-र्यदीयभोगीशशतैस्तिरस्कृता ।

शीर्षस्फुरद्रत्नवरैकमण्डिता, भोगावती युक्तमगाद्रसातलम् ॥ ८ ॥

अर्थ—जे क्षितिप्रतिष्ठित नगरीमां वसता सर्वांगे रत्नोना आभूषणोथी सेंकडो भोगीशो वडे तिरस्कार पामेली भोगावती नगरी
 रसातलमां चाली गइ ते युक्तज थयुं छे. कारण के-ते भोगावती नगरी, मस्तकने विषे स्फुरायमान उत्तम शेषमणिवाळा एकज भो-
 गीश वडे शोभती छे, ज्यारे आ नगरीमां अनेक भोगीशो एटले समर्थ भोगीओ रहे छे । वळी भोगावती नगरीमां रहेता भोगीश
 एटले शेषनागना मस्तकने विषेज रत्न-मणि छे, ज्यारे आ नगरीमां वसता सेंकडो भोगीशोने सर्वांगे रत्नोनां आभूषणो छे । आ
 प्रमाणे क्षितिप्रतिष्ठित नगरीथी दरेक रीते उतरती भोगावती नगरी लज्जा पामीने रसातलमां चाली गइ छे ॥ ८ ॥

तत्र श्रीमान् महारूप-निरूपितपुरन्दरः । राजा नाभाकनामाऽभूद्, अभृष्टिः पापतापयोः ॥ ९ ॥

अर्थ—ते नगरने विषे समृद्धिमान्, पोतानां अलौकिक सौंदर्यवढे दृष्टान्तभूत करेलो छे इन्द्रने जेणे एवो, तथा पाप अने संतापनुं अस्थान नाभाक नामनो राजा हतो ॥ ९ ॥

पुरा कलाकेलिरनङ्गभावं, वधूद्वयेनापि जगाम दिव्यन् । वधूसहस्रैरपि सैष खेलन्, अत्राप सर्वाङ्गमनोहरत्वम्


अर्थ—पुरातन समयमां, कामदेव बे स्त्रीओ साथे खेलतो छतो पण अनंगपणाने पाम्यो हतो, परंतु आ नाभाकराजा तो हजारो स्त्रीओनी साथे क्रीडा करतो छतो पण सर्वांगे मनोहरपणाने पाम्यो हतो । कामदेव रति अने प्रीति नामनी बे ज स्त्रीओ साथे क्रीडा करवा छतां अनंगपणाने एटले अंगरहितपणाने पाम्यो हतो, पण आ राजा तो हजारो स्त्रीओनी साथे खेलतो हतो छतां पण सर्वांगे मनोहरपणाने पाम्यो हतो ॥ १० ॥

तमन्यदा मुदासीनं, सभायामेत्य भूपतिम् । सत्प्राभृतं पुरस्कृत्य, श्रेष्ठी कश्चिन्नमोऽकरोत् ॥ ११ ॥

अर्थ—एक दिवसे ते राजा पोतानी सभामां हर्षित चित्ते बेठो हतो, ते अवसरे कोइक श्रेष्ठीए आवीने राजानी सन्मुख सुंदर भेटणुं मूकी नमस्कार कर्यो ॥ ११ ॥

कस्त्वं कुतः समायातः कुत्र यासीति भूमृता । पृष्ठे स्पष्टमथाचष्ट, श्रेष्ठी राचन्निशम्यताम् ॥ १२ ॥

अर्थ—त्यारे राजाए ते शेठने पूछ्युं के, तमे कोण छो? क्यांथी आव्या छो? अने क्यां जाओ छो? । तेना प्रत्युत्तरमां श्रेष्ठीए



नाभांक

॥ ५ ॥

स्पष्ट रीते कहुं के, हे राजन् ! मारुं समस्त वृत्तान्त सांभळो ॥ १२ ॥

श्रेष्ठी धनाढ्यनामाऽहं, श्रीवसन्तपुरे वसन् । श्रीशत्रुंजययात्रार्थं, चलितोऽत्र समागमम् ॥ १३ ॥

अर्थ—हूं वसन्तपुर नगरमां निवास करुं छुं. मारुं नाम धनाढ्य शेठ छे, अने श्रीशत्रुंजय तीर्थनी यात्रार्थे जतां अहीं मारुं आववुं थयुं छे.

कः श्री शत्रुञ्जयस्तत्र, यात्रया किं फलं नृपे । पृच्छतीति भाग्यलभ्याः, सभ्याः पौराणिका जगुः ॥ १४ ॥

अर्थ—त्यारे, भाग्यथी जेमनी प्राप्ति थइ शके एवा महा धुरंधर सभामां बेठेला पौराणिक पुरुषोने राजाए पूछयुं के, 'श्री शत्रुंजयतीर्थ कयुं ? तथा तेनी यात्राथी थुं फळ थाय ?' । ए प्रश्ननो उत्तर पौराणिक पुरुषोए राजाने स्पष्टतापूर्वक समजावतां कहुं के—॥

इक्ष्वाकुभूमौ भरतेऽत्र पूर्वं, श्रीनाभिनामा कुलकृद् बभूव ।

सद्रुद्रभाऽभूद् मरुदेवी तस्याः, कुक्षौ जिनः श्रीवृषभोऽवतीर्णः ॥ १५ ॥

अर्थ—पहेलां आ भरतक्षेत्रमां इक्ष्वाकुभूमिने विषे श्रीनाभि नामनां कुलकर थया, तेमने मरुदेवी नामनी श्रेष्ठ पत्नी हती. तेमनी कुक्षिमां श्रीऋषभदेव जिनेन्द्रनो जन्म थयो ॥ १५ ॥

असंख्यवर्षाणि न धर्मकर्मा—ऽभिज्ञो जनोऽभूत् समयानुभावात् ।

प्रकाश्य तन्मार्गयुगं तदत्रा—ऽवतीर्थ सोऽनीतिपथं लुलोप ॥ १६ ॥

चरित्रं

॥ ५ ॥

अर्थ—काळना प्रभावथी असंख्यवर्षोथी जनसमुदाय धर्म अने कृषि-वाणिज्यादि कर्मथी अजाण हतो. ते सर्वेने प्रभुए आ भरत-क्षेत्रमां अवतरीने धार्मिक अनुष्ठान तथा कृषि-वाणिज्य विगेरे व्यवहारिक क्रियाओ बतावी. आ प्रमाणे धर्म अने कर्म ए बन्ने प्रकारना मार्ग समजावी अनीति मार्गनो तदन लोप कर्यो. ॥ १६ ॥

आदौ स पाणिग्रहणं विधाय, शतं सुतानां च विभज्य राज्यम् ।

भुक्त्वा सुखं नीतिपथं विधाय, तप्त्वा तपो ज्ञानमनन्तमाप ॥ १७ ॥

अर्थ—पहेलां तेमणे सुनंदा अने सुमंगला नामनी बे कन्याओ साथे विवाह करी, सांसारिक सुख भोगवी, नीतिमार्ग प्रवर्तावी, भरत बाहुबलि विगेरे पोताना सो पुत्रोने जुदुं जुदुं राज्य वहेची आपी दीक्षा ग्रहण करी. त्यार पछी अनेक प्रकारना दुस्सह तप तपी केवलज्ञान प्राप्त कर्युं ॥ १७ ॥

ततः स धर्म दशधोपदिश्य, प्रबोधयन् भारतभव्यसत्त्वान् ।

शैले सुराष्ट्राभरणेऽधिरुह्य, क्वचित् प्रियालुद्रुतलं सिषेव ॥ १८ ॥

अर्थ—त्यार बाद प्रभु श्रीआदीश्वर क्षमादिक दस प्रकारना धर्मनो उपदेश करीने भारतवर्षना सर्व प्राणीवर्गने प्रतिबोध करता यका सौराष्ट्र (सोरठ) देशना आभूषणतुल्य श्रीशत्रुंजय पर्वतपर चढीने रायणवृक्षनी नीचे ध्यानारूढ थया ॥ १८ ॥

श्रीपुण्डरीकं गणनायकं श्री-प्रभुः पुरस्कृत्य तदेत्यवादीत्। इदं महातीर्थमनाद्यनन्तं, कालेन सङ्कोचविकौचधर्मि

अर्थ—प्रभुए ते समये श्रीपुंडरीक गणधरनी समक्ष आ प्रमाणे कहुं के, 'आ महातीर्थ शत्रुंजयगिरि अनादि अनंत छे, पण ते कालक्रमे संकोच अने विस्तारने पामेछे ॥ १९ ॥

मूले पृथुः सम्प्रति योजनानि, पञ्चाशदूर्ध्वं दश योजनानि ।

उच्चस्तथाऽष्टावथ सप्तहस्तो, भूत्वा पुनः प्राप्स्यति वृद्धिमेवम् ॥ २० ॥

अर्थ—हालमां आ गिरि मूळमां पचास योजन विस्तारवाळो, उपर दस योजन विस्तारवाळो, अने उंचाइमां आठ योजनप्रमाण छे. अने आ अवसर्पिणीमां घटतो घटतो छट्टा आरामां छेवटे सात हाथप्रमाण थइ पाछो उत्सर्पिणीमां विस्तारने पामशे ॥ २० ॥

शत्रुञ्जयश्रीविमलाद्रिसिद्ध-क्षेत्रेतिनामत्रितयं सदाऽस्य ।

श्रीपुण्डरीकेत्यभिधा चतुर्थी, भविन्! स्थितेस्तेऽथ भविष्यतीह ॥ २१ ॥

अर्थ—हे भव्य पुण्डरीक ! आ गिरिनां शत्रुंजय, विमलाचल अने सिद्धक्षेत्र ए प्रमाणे त्रण नाम शाश्वता छे, अने अत्रे तारो निवास थवाथी श्रीपुंडरीक नामनुं चोथुं नाम प्रसिद्ध थशे ॥ २१ ॥

संसेव्य शत्रुञ्जयशैलमेन-मनेनसः स्युर्ननु पापिनोऽपि ।

भुवोऽनुभावात् किल मृत्तिकापि, प्राप्नोति सर्वोत्तमरत्नभावम् ॥ २२ ॥

अर्थ—आ शत्रुंजयगिरिनुं सेवन करवाथी पापी पुरुषो पण पाप रहित थाय छे, खरेखर आ पवित्र तीर्थभूमिना प्रभावथी माटी पण सर्वोत्तम रत्नपणाने प्राप्त करे छे ॥ २२ ॥

ये शुद्धभावेन निभालयन्ति, भव्या महातीर्थमिदं कदाचित् ।

किं श्वभ्रतिर्यग्भवसंभवः स्याद् ?, न शेषगत्योरपि जन्म तेषाम् ॥ २३ ॥

अर्थ—जे भव्यप्राणीओ आ तीर्थनुं कोइ पण समये निर्मळभावपूर्वक नेत्रथी दर्शन मात्र करे छे, तेओने देवगति तथा मनुष्यगतिमां पण जन्म लेवो पडतो नथी, तो पछी नरक अने तिर्यचगतिनो तो संभवज क्यांथी होय? । अर्थात् आ पवित्र तीर्थनुं भानपूर्वक दर्शन करनारा भाग्यशाली भव्य प्राणीओने चार गतिमां जन्म-मरणनी विडंबना भोगववी पडती नथी, तेओ अनंत सुखमय मोक्षमां जाय छे

श्रीमद्युगादीशमुखाद् मुनीन्द्रा—स्तत् तन्महातीर्थफलं निशम्य ।

श्रीपुण्डरीकप्रमुखा निषेव्य, तत्तीर्थमापुः समयेऽपवर्गम् ॥ २४ ॥

अर्थ—आ प्रमाणे श्रीमान् युगादि प्रभुना मुखथी पुंडरीक गणधर विगेरे मुनीन्द्रोए ते महातीर्थनो प्रभांव तथा तेनी सैवाथी मळता फळने सांभळी, ते शत्रुंजय तीर्थनुं सेवन करी, पोतपोताने समये मोक्ष पाम्या ॥ २४ ॥

प्राप्ते शिवं श्रीऋषभे सुतोऽस्य, शत्रुञ्जये श्रीभरतारुचक्रौ ।

अतिष्ठिपद् रत्नमयि सुवर्ण-प्रासादमध्ये प्रतिमां तदीयाम् ॥ २५ ॥

अर्थ—श्रीऋषभदेवप्रभु मोक्ष गया बाद तेमना पुत्र श्रीभरतचक्रवर्तीए शत्रुंजय तीर्थ उपर सुवर्णप्रासादमां ते प्रभुनी रत्नमय प्रतिमा स्थापन करी ॥ २५ ॥

योऽस्य नाम हृदि साधु वावदिः, क्लेशलेशमपि नो स सासहिः ।

योऽस्य वर्त्मनि मुदैव चाचलिः, संसृतौ न स कदापि पापतिः ॥ २६ ॥

अर्थ—जे पुरुष पोताना हृदयमां सम्यक् प्रकारे श्रीशत्रुंजय तीर्थनुं स्मरण करे छे, तेने लेशमात्र पण दुःख सहन करवुं पडतुं नथी, तेमज जे पुरुष आ तीर्थना मार्गमां प्रफुलित चित्तयुक्त थइ गमन करे छे, ते कदापि संसारमां पडतो नथी—तेने संसारमां भ्रमण करवुं पडतुं नथी. ॥ २६ ॥

नाऽतः परं तीर्थमिहास्ति किञ्चिद्, नातः परं वन्द्यमिहास्ति किञ्चित् ।

नातः परं पूज्यमिहास्ति किञ्चिद्, नातः परं ध्येयमिहास्ति किञ्चित् ॥ २७ ॥

अर्थ—आ तीर्थथी बीजुं कोइ महान् तीर्थ नथी, आ तीर्थथी बीजुं कोइ पण अधिक वन्दनीय नथी, आ तीर्थथी बीजुं कोइ पण विशेष पूजनीय नथी, अने आ तीर्थथी बीजुं कोइ पण उत्कृष्ट ध्येय-ध्यान करवा योग्य नथी. ॥ २७ ॥

पञ्चाशदादौ किल मूलभूमे-र्दशोर्ध्वभूमेरपि विस्तरोऽस्य ।

उच्चत्वमष्टैव तु योजनानि, मानं वदन्तोह जिनेश्वराद्रेः ॥ २८ ॥

अर्थ—(पवित्रतीर्थं श्रीशत्रुंजयना परिमाण विषयमां अन्यग्रन्थोने विषे पण आ प्रमाणे उल्लेख छे)—श्रीऋषभदेव प्रभुना निवासालय आ गिरिनो आदिनाथ प्रभुनी वखते मूलभूमिनो विस्तार पचास योजन, ऊर्ध्वभूमिनो विस्तार दस योजन, अने आ गिरिनी उंचाइ आठ योजन हती.

दृष्ट्वा शत्रुंजयं तीर्थं, स्पृष्ट्वा रैवतकाचलम् । स्नात्वा गजपदे कुण्डे, पुनर्जन्म न विद्यते ॥ २९ ॥

अर्थ—भागवतमां पण कह्युं छे के—जे मनुष्य श्रीशत्रुंजयगिरिनुं दर्शन करे छे, गिरिनार पर्वतनो स्पर्श करे छे, अने गजपद कुंडमां स्नान करे छे तेने फरीथी जन्म लेवो पढतो नथी ॥ २९ ॥

अष्टपष्टिषु तीर्थेषु, यात्राया यत् फलं भवेत् । श्रीशत्रुंजयतीर्थेश-दर्शनादपि तत्फलम् ॥ ३० ॥

अर्थ—(नागपुराणमां कहुं छे के) अडसठ तीर्थोने विषे यात्रा करवाथी जे फळ प्राप्त थाय, तेदहुं फळ मात्र एक तीर्थाधिपति श्रीशत्रुंजयतीर्थनां दर्शन करवाथी प्राप्त थाय छे. ॥ ३० ॥

अतो धराधोश्वर ! भारतीं भुवं, तथाऽधिगम्योत्तममानुषं भवम् ।

युगादिदेवस्य विशिष्टयात्रया, विवेकिना ग्राह्यमिदं फलं श्रियाः ॥ ३१ ॥

अर्थ—(तीर्थमाला स्तवमां पण कहुं छे के) माटे हे भूपति! आ भारतभूमि तेमज उत्तम मनुष्यजन्म पामीने, युगादिदेव श्री-
आदिनाथनी विशिष्ट प्रकारनी यात्रा करीने विवेकी पुरुषोए पोताने प्राप्त थयेली लक्ष्मीनुं फळ ग्रहण करवुं. ॥ ३१ ॥

एवं श्रुत्वा नरेशोऽपि, तीर्थमाहात्म्यमद्भुतम् । विसृज्य श्रेष्ठिनं यात्रा-निमित्तं लग्नमग्रहीत् ॥ ३२ ॥

अर्थ—आ प्रमाणे श्री शत्रुंजय तीर्थनो अद्भुत प्रभाव सांभळीने नाभाक राजाए ते धनाढ्य शेठने विसर्जन करो, श्रीशत्रुंजय
तीर्थनी यात्राने माटे उत्तम लग्न-मुहूर्त जोवडाव्युं ॥ ३२ ॥

लग्नक्षणे व्यतिक्रान्ते, ब्रह्मद्वारव्यथावशात् । पश्चात्तापं दधदू भूपो, द्वितीयं लग्नमग्रहीत् ॥ ३३ ॥

अर्थ—पण ज्यारे मुहूर्तनो दिवस आव्यो त्यारे कर्मयोगे मस्तकमां ब्रह्मद्वारने विषे असह्य पीडा थवाथी तेनाथी जइ शकायुं नहीं,
तेथी पश्चात्ताप करता राजाए ज्योतिषी पासे बीजुं मुहूर्त कढाव्युं. ॥ ३३ ॥

आकस्मिकसमुद्भूत-ज्येष्ठपुत्रव्यथावशात् । तस्मिन्नपि गते लग्ने, तृतीयं लग्नमाददे ॥ ३४ ॥

अर्थ—ते बीजी वखते जोवडावेला मुहूर्तनो दिवस आवतां पोताना मोटा पुत्रने अकस्मात् व्यथा उत्पन्न थवाथी ते बीजुं मुहूर्त
पण गयुं. त्यारे राजाए ज्योतिषीओ पासे त्रीजुं मुहूर्त कढाव्युं. ॥ ३४ ॥

पट्टदेवीमहाकष्टा-ज्ञातस्तस्याऽप्यतिक्रमः । स्वचक्रशङ्कया लग्न-मत्यगात् तुर्यमप्यथ ॥ ३५ ॥

अर्थ—ते त्रीजी वखत जोवडावेला मुहूर्तनो दिवस आवतां पोतानी पटराणीने अकस्मात् महाव्याधि उत्पन्न थवाथी ते दिवसे पण राजा नीकळी शक्यो नहीं. त्यारे फरीथी चोथी वखत नाभाक राजाए मुहूर्त जोवडाव्युं, पण ते मुहूर्त आवतां पोताना सैन्यमां तथा देशमां बखेडो जागवानी शंकाथी ते वखते पण राजा श्रीशत्रुंजय तीर्थनी यात्रा करवा माटे नीकळी शक्यो नहीं, अने चोथुं मुहूर्त पण व्यतीत थइ गयुं ॥ ३५ ॥

अहो ! पापी समात्मेपि, निन्दन् स्वं पञ्चमं नृपः । मुहूर्तमाददे तच्च, परचक्रभयाद् गतम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—आ प्रमाणे श्रीशत्रुंजय तीर्थनी यात्रा निमित्ते जोवडावेला चारे मुहूर्तो निष्फळ जवाथी, 'अरे! मारो आत्मा महा पापी छे के जेथी पवित्रतीर्थ श्रीशत्रुंजयनी यात्रा करवा जतां आवी रीते विघ्नो आव्याज करे छे' ए प्रमाणे पोताना आत्मानि निंदा करता थका राजाए पांचमुं मुहूर्त कढाव्युं. पण कर्मसंयोगे ते मुहूर्त पण पोताना देश उपर बीजा राजाओना सैन्यो चढी आववाना भयथी वीती गयुं.

एवं भूपो व्यतिक्रान्ते, यात्राया लग्नपञ्चके । हेतुमस्य कथं ज्ञास्या—मीति चिन्तातुरोऽभवत् ॥ ३७ ॥

अर्थ—आ प्रमाणे श्रीशत्रुंजय तीर्थनी यात्रा करवा माटे ज्योतिषीओ पासे कढावेला पांचे मुहूर्तो व्यतीत थवाथी 'आवी रीते विघ्नो आववानुं कारण हुं केवी रीते जाणीश?' ए प्रमाणे राजा चिंतातुर थयो. ॥ ३७ ॥

तावन्नोद्यानमायाताः, श्रीयुगन्धरसूरयः । इति विज्ञपयामास, भूपालं वनपालकः ॥ ३८ ॥

अर्थ—एम विचार करे छे, तेटलां वनपालके आवी राजाने वधामणी आपी के—उद्यानमां श्रीयुगंधरसूरि समवसर्या छे. ॥ ३८ ॥

ततो गतो वनं राजा, चतुर्ज्ञाननिधीन् गुरुन् । ज्ञात्वा नत्वाऽन्तरायाणां, हेतून् पप्रच्छ भक्तिभाक् ॥
 अर्थ—त्यार बाद राजा पोताना कुटुंब परिवार सहित अत्यंत भक्तिबडे उल्लसित चित्तवान् थइ उद्यानमां गयो, त्यां जइ गुरुमहा-
 राजने विधिपूर्वक वंदन करी तेमने चार ज्ञानना निधि जाणी पोताना अंतरायनुं कारण पूछयुं. ॥ ३९ ॥

गुरवो मनसा सीम-न्धरस्वामिजिनं ततः । नत्वाऽप्रक्षुरथ स्वाम्य-प्यूचे तन्मनसाऽखिलम् ॥ ४० ॥

अर्थ—त्यार पछी गुरुमहाराजे मन बडे श्रीसीमंधर जिनेन्द्रने नमीने पूछयुं, त्यारे श्रीसीमंधरस्वामीए मनथीज सर्व वृत्तान्त निवेदन कर्यो.

मनःपर्यायतो ज्ञानात्, श्रीयुगन्धरसूरयः । सम्यग् विज्ञाय वृत्तान्तं, तं जगुर्भूपतिं प्रति ॥ ४१ ॥

अर्थ—श्रीयुगन्धराचार्ये मनःपर्यायज्ञानथी सर्व वृत्तान्त सम्यक् प्रकारे जाणीने राजाने जणाव्युं के-॥ ४१ ॥

राजन् ! सुखेषु दुःखेषु, मुख्यं कर्मैव कारणम् । तच्चाऽर्जितं त्वया पूर्वं, यथा मूलात् तथा शृणु ॥ ४२ ॥

अर्थ—हे राजन् ! सुख अने दुःख ए बन्ने प्रसंगोमां दरेक प्राणीने मुख्य कारण कर्मज छे. अने तेवुं कर्म पूर्वभवमां तें जे उपार्जन
 कर्युं छे ते बीना तुं अथथी इति पर्यंत सांभळ. ॥ ४२ ॥

नाभाकराजाना पूर्वभवनुं वृत्तान्त.

एकोनविंशत्यम्भोधि-कोटाकोटिप्रमाणतः । कालात् परमतीतायां, चतुःसंयुतविंशतौ ॥ ४३ ॥

जम्बूद्वीपस्य भरते, सम्प्रतिस्वामिवारके । उपाम्भोधि तामलिती-नगर्यां भ्रातरावुभौ ॥४४॥

समुद्र-सिंहौ ज्येष्ठस्तु, निर्मलः पुण्यवानृजुः । विपर्यस्तः कनिष्ठश्च, बदरीकण्टकाविव ॥४५॥

अर्थ—ओगणीश कोडाकोडी सागरोपम काल पहेलां, अतीतचोवीशीमां जम्बूद्वीपना भरतक्षेत्रने विषे संप्रतिस्वामी नामना तीर्थ-करना वारामां, समुद्रतट समीपे तामलिती नगरीमां समुद्र अने सिंह नामना बे भाइ रहेता हता. तेओमां मोटो भाइ समुद्र निर्मल चारित्रवाळो पुण्यवान् अने सरलहृदयी हतो, पण नानो भाइ दुष्ट आचरणवाळो महापापी अने क्रूरहृदयी हतो. जेम बोरडीना कांटाओ पैकी कोइ वक्र अने कोइ सीधो होयछे, तेम आ बन्ने भाइओमां मोटो भाइ सरल हतो, अने नानो भाइ वक्र हतो. ॥४३-४४-४५॥

भुवं खनद्भ्यां ताभ्यां स्व-गृहे स्थूणार्थं मन्यदा । चतुर्विंशतिदीनार-सहस्रनिधिराप्यत ॥

अर्थ—ते बन्नेए एकदिवस पोताना घरनी अंदर थांभलो नाखवा माटे पृथ्वी खोदतां चोवीश हजार सोनामहोरथी भरेलो निधि प्राप्त कर्यो.

देवद्रव्यमिदं नाग-गोष्ठिकेन निधीकृतम् । इत्याक्तगर्भं पत्रं च, ज्येष्ठो दृष्ट्वेत्यभाषत ॥४७॥

अर्थ—तथा तेनी साथे एक पत्र नीकळ्यो. तेमां एवा भावार्थनुं लख्युं हतुं के—‘आ देवद्रव्य नागनामना कुटुंबीए निधि तरीके दाट्युं छे’ आ प्रमाणे लखेलो पत्र बांचीने ज्येष्ठ भ्राता समुद्रे पोतानो अभिप्राय जाहेर कयो के ॥ ४७ ॥

गत्वा शत्रुञ्जये नाग-श्रेयसे दीयते ह्यदः । श्रुत्वेति जायया नुन्नः, कनीयानित्यवोचत ॥४८॥

अर्थ—‘शत्रुंजयमां जइने नागगोष्ठिकना पुण्यने माटे आ नीकळेल देवद्रव्य आपीए’ । ए प्रमाणे मोटा भाइनुं वचन सांभळी

पोतानी स्त्रीथी प्रेरायेलो नानो भाइ सिंह बोल्यो के ॥ ४८ ॥

कन्या वरार्हा जाताऽसौ, परं नोद्वाहिता पुरा । धनं विनाऽथ तत्प्राप्तौ, सोत्सवेन विवाह्यते ॥ ४९ ॥

अर्थ—‘आ कन्या वरने योग्य थइ छे, परंतु अत्यार सुधी धन विना तेनुं लग्न कर्युं नथी, पण हवे धननी प्राप्ति थवाथी तेनो महोत्सव पूर्वक विवाह करीए’ ॥ ४९ ॥

दध्यौ समुद्रः श्रुत्वेति, स्वभावाद् दुष्टधीरसौ । भार्यया प्रेरितो जातो, वात्येरितकृशानुवत् ॥ ५० ॥

अर्थ—आवुं नाना भाइनुं अयोग्य कथन सांभली समुद्रे विचार कर्यो के—आ स्वभावथीज दुष्ट बुद्धिवाळो छे, अने हमणां वळी स्त्रीनी प्रेरणाथी जेम पवनना सुसवाटथी अग्निनी वृद्धि थाय तेम आनी पण दुष्टबुद्धि अधिक वृद्धि पामी छे. खरेखर दुनियामां स्त्रीओए महान् महर्षिओने पण पोताना मनोहर तीव्र कटाक्ष तेमज वाग्बाणोथी पोताने वश करी लीधां छे, तो पछी आना जेवो एक सामान्य मनुष्य तेनी आगळ शं करी शके? ॥ ५० ॥

सुवंशजोऽप्यकृत्यानि, कुरुते प्रेरितः स्त्रिया । स्नेहलं दधि मथ्नाति, पश्य मन्थानको न किम्? ॥ ५१ ॥

अर्थ—उच्च कुळमां जन्म पामेल पुरुष पण स्त्री वडे प्रेरायेलो नहिं आचरवा योग्य अकृत्यनुं आचरण करे छे, कारण के, सुवंशथी थयेलो—सारा वांसथी बनेलो रवैयो स्त्री वडे प्रेरायेलो छतो शं स्नेहवाळा—चिकाशदार दहीनुं मथन करतो नथी? अर्थात् करेज छे.

देवद्रव्योपभोगेन, घोरां यास्यति दुर्गतिम् । ततो बन्धुरयं बन्धु-रया बोध्यो गिरा मया ॥ ५२ ॥

अर्थ आ मारो भाइ जो स्त्रीना कथन मुजब देवद्रव्यनो उपभोग करशे, तो अत्यंत भयंकर नरकादि दुर्गतिमां जशे, माटे आने मारे मृदु अने श्रेष्ठ वाणीथी प्रतिबोध करवो जोइए.

निश्चित्येत्यवदद् भ्रातः!, पातकात् श्वभ्रपातुकात् । न किं विभेषियद्देव--द्रव्यभोगमपीच्छसि?॥५३॥

अर्थ—एम निश्चय करीने ताना भाइने कहुं के-बन्धु! नरकादि भयंकर गतिमां पाडनार पापथी शुंतुं डरतो नथी? के जेथी देव-द्रव्यना पण उपभोगनी इच्छा करे छे. ॥ ५३ ॥

देवद्रव्येण यत्सौख्यं, यत्सौख्यं परदारतः । अनन्तानन्तदुःखाय, तत्सौख्यं जायते ध्रुवम् ॥५४॥

अर्थ—जे मनुष्य देवद्रव्यना उपभोग वडे तेमज परस्त्री सेवन द्वारा जे मननुं मानी लीधेल सुख मेळवे छे, ते सुख निःशंक अनन्तानंत दुःख प्राप्त करावनार थाय छे. ॥ ५४ ॥ (जैन सिद्धान्तमां पण कहुं छे के—

“चेइयदवविणासे, रिसिघाए पवयणस्स उड्डाहे । संजइयचउत्थभंगे, मूलगी बोहिलाभस्स”॥५५॥

अर्थ—चैत्यना द्रव्यनो विनाश करवाथी, ऋषिनो घात करवाथी, शास्त्र विरुद्ध प्ररूपणा करवाथी, तेमज संयतिना चतुर्थव्रतनो भंग करवाथी, सम्यक्त्वना मूलमांज अग्नि पडे छे; अर्थात् सम्यक्त्व नाश पामे छे. ॥ ५५ ॥

वरं सेवा वरं दास्यं, वरं भिक्षा वरं मृतिः । निदानं दीर्घदुःखानां, न तु देवस्वभक्षणम् ॥५६॥

अर्थ—कोइनी सेवा करी आजीविका चलाववी श्रेष्ठ छे, चाकर थइने रहेवुं सारुं छे, भीक्षा मागी उदर पोषण करवुं उत्तम छे, अने छेवटे भूख्या मरी जवुं पडैतो ते पण बहेतरछे; पण सर्व प्रकारनां दुःखोनुंकारण देवद्रव्यनुं भक्षण करवुं ते बीलकुल ठीक नथी. ५६

भ्रातुरित्युपदेशेन, मौनी सिंहस्तदोत्थितः । एकान्ते भार्ययाऽभाणि, हा! मोग्ध्याद् वंच्यसे कथम् ॥

कपोलकल्पितैर्यद्वा, को नाम न हि वंच्यते! । परं यथा तथा सर्व--मर्ध वाऽऽदत्स्व तन्निधिम् ॥५८॥

अर्थ—आ प्रमाणे भाइनो उपदेश सांभळी मौन रहेलो सिंह त्यांथी उठ्यो, तेने एकांतमां तेनी पत्नीए कळुं के—“तमे भोळपणथी केम ठगाओ छो? अथवा कपोलकल्पित वातोथी कयो पुरुष न ठगाय? परंतु जेम तेम करीने सर्व निधि आपणे ताबे करो, अथवा संपूर्ण निधि न आपे तो, छेवटे अरधुं धन पण तमे ग्रहण करो” ॥ ५७-५८ ॥

एवं भार्येरितः सिंहो, लङ्घनत्रितयं व्यधात् । अहं पृथग् भविष्यामी--त्युवाच स्वजनानपि ॥५९॥

अर्थ—ए प्रमाणे भार्याना समजाववाथी प्रेरायेला सिंहे त्रण दिवस लांघण करी, अने पोताना सगांसंबंधीओने कळुं के, हुं जुदो थइश

तेषां बलेन वेश्मार्ध, निधानार्ध च सोऽग्रहोत् । समुद्रस्तु ततः शत्रु-उजययत्राचिकोरभूत् ॥६०॥

अर्थ—सगां-संबंधीओनी लागवग पहोंचाडी तेओना बल वडे सिंहे समुद्र पासेथी घर अने निधाननो अरधो भाग ग्रहण कर्यो. त्यार पछी समुद्रे श्रीशंजयतीर्थनी यात्रा करवानो अभिलाष कर्यो.

निधानार्धं व्यये तीर्थे, नागपुष्पार्धमित्यसौ । यावच्चलति सिंहेन तावद्राज्ञे निवेदितम् ॥ ६१ ॥

लेभे निधानं मद्भ्रात्रा, यात्राव्याजादसौ ततः। तदादाय ब्रजन्नस्ति, न दोषोऽथ मनाग् मम॥६२॥

अर्थ—‘श्री शत्रुंजय तीर्थमां जइ, आ बाकी रहेला निधानमांना द्रव्यनो नाग श्रेष्ठीना पुण्यने माटे व्यय करवो छे’ एम विचार करी समुद्र तीर्थयात्रा करवा माटे चालवानी तैयारी करतो हतो; तेवामां सिंहे ते नगरना राजानी आगळ जइने निवेदन कर्युं के— ‘मारा मोटा भाइ समुद्रे दाटेळुं निधान मेळव्युं छे, ते निधानने लइने तीर्थयात्रानुं बहानुं करी अहींथी हमणांज जाय छे; में मारी फरज समजी आपने जाहेर कर्युं छे, हवे कदाच निधान लइने चाल्यो जाय तो तेमां मारो दोष नथी ॥ ६१-६२ ॥

मुहूर्तक्षण एवाऽथ, राज्ञाऽऽहूय नियन्त्रितः। समुद्रः कारणं ज्ञात्वा, निधानार्थं पुरोऽमुचत् ॥ ६२ ॥

अर्थ—सिंहना भंभेरवाथी कुपित थयेला राजाए समुद्रने मुहूर्त क्षणमांज बोलावी नियंत्रित कर्यो। पोताने अकस्मात् नियंत्रित करवानुं कारण जाणीने समुद्रे अर्धनिधान राजानी आगळ मूक्युं.

सर्वं स्वरूपं चावेद्य, निधिपत्रमदर्शयत्। यथावस्थितवक्तेति, समुद्रं मुमुचे नृपः ॥ ६४ ॥

अर्थ—तेमज निधान नीकळवा बाबतनी सर्व वात राजाने कहीने भूमिमांथी निकळेले निधिपत्र बताव्यो। सत्यवादी समुद्रना वचन उपर राजाने संपूर्ण विश्वास बेठो, अने आ सत्य बोलनार छे एम धारीने छोडी मूक्यो ॥ ६४ ॥

देवद्रव्यं च तज्ज्ञात्वा, प्रत्यर्थन्यायधर्मवित्। समुद्रं बहु सत्कृत्य, यात्रार्थं व्यसृजन्नृपः ॥ ६५ ॥

अर्थ—तथा ‘आ देवद्रव्य छे’ एम जाणी श्रेष्ठनीति पाळनार अने धर्मनो ज्ञाता एवा राजाए समुद्रनो घणोज सत्कार करीने तीर्थ-

यात्रा माटे विसर्जन कर्यो ॥ ६५ ॥

अथ द्विगुणितोत्साहः, समुद्रः स्वकुटुम्बयुक् । मुहूर्तान्तरमादाय, यात्रार्थं प्रास्थितं द्रुतम् ॥६६॥

अर्थ—आ प्रमाणे राजानुं सन्मान पामवाथी बमणो उत्साहित थयेला समुद्रे निमित्तया पासे बीजुं उत्तम मुहूर्त कढावी पोताना कुटुंब सहित यात्राने माटे शीघ्र प्रयाण कर्युं ॥ ६६ ॥

चतुर्भिर्योजनैरर्वाकू, श्रीशत्रुञ्जयतीर्थतः । यावद् भुङ्क्ते सरस्तीरे, श्रीकाञ्चनपुरे पुरे ॥ ६७ ॥

तत्राऽपुत्रे मृते भूपे, तावद् मन्त्राऽधिवासितैः । आगत्य पञ्चभिर्दिव्यै, राज्यं तस्मै ददे मुदा ॥६८॥

अर्थ—श्रीशत्रुंजय तीर्थथी चार योजन दूर श्रीकांचनपुर नामना नगरनी नजीकना सरोवरने कांठे जेवामां भोजन करे छे तेवामां ते नगरमां पुत्र रहित राजा मरण पामवाथी मंत्र वडे अधिवासित थयेला पांच दिव्योए त्यां आवी तेने हर्षसहित राज्य अर्पण कर्युं ॥६७-६८

गजारूढः सितच्छत्र-शाली चामरवीजितः । अन्वीयमानः पूलोकैः, स्तूयमानः कवीश्वरैः ॥ ६९ ॥

चतुरङ्गचमूचार-विचित्राऽखिलसत्पथः । राज्यतूर्यध्वानपूर्य-माणब्रह्माण्डमण्डपः ॥ ७० ॥

विलसत्तोरणं प्रोच्चपताकं प्रेक्ष्यनाटकम् । वर्णाम्भःसिक्तभूपीठ-व्यक्तस्वस्तिकसङ्कुलम् ॥ ७१ ॥

विचित्रोल्लोचसम्पूर्णा-ऽऽपणश्रेणिविराजितम् । समुद्रपालभूपालः, सोत्सवं प्राविशत् पुरम् ॥ ७२ ॥

अर्थ—तदनंतर श्रेष्ठ हस्तीपर आरूढ थयेल, श्वेत छत्रे करीने शोभायमान, चामरो वडे वींजाता, जेनी पाछळ नगरना प्रतिष्ठित लोको चाली रहेला छे, कवीश्वरो वडे स्तुति करता, ॥ ६९ ॥ चतुरंगी सेनानी मंद मंद मनोहर गतिथी विचित्र करेलो छे समग्र सुंदर मार्ग जेणे, अने राज्यना वाजींत्रोना मधुरा निर्घोषथी पूरी दीधो छे ब्रह्मांडरूपी मंडप जेणे एवा समुद्रपाल राजाए ॥ ७० ॥ विविध रंगना तोरणोए करी रमणीय, गगन मंडलमां फरकी रहेली उच्चपताकाओ युक्त, दर्शनीय मनोहर नाटको सहित अनेक रंगना सुगंधी जलथी सिंचाती पृथ्वीपीठीका उपर स्पष्ट जणाता साथीयाओथी व्याप्त ॥ ७१ ॥ जेनी अंदर रंगबेरंगी विविध प्रकारना किंमती चंदरवा लगावी दीधा छे एवी मालथी भरपूर बनेली दुकानोनी पंक्तिथी शोभी रहेल श्रीकांचनपुर नगरमां प्रवेश कर्यो ॥ ७२ ॥

राज्यकार्याणि कृत्वाऽह-स्त्रितयेन स सैन्ययुक् । ऋद्ध्या महत्याऽऽध्यारोहत् श्रीशत्रुञ्जयपर्वतम् ॥ ७३ ॥

अर्थ—त्रण दिवसमां तमाम राज्यकार्य आटोपी, ते समुद्रपाल राजा पोताना सैन्ययुक्त मोठी ऋद्धी सहित तीर्थाधिराज श्रीशत्रुञ्जय पर्वतपर चड्यो ॥ ७३ ॥

स्नात्रादिसप्तदशमि-भेदैः सिद्धान्तभाषितैः । स तत्रा सूत्रयामास, पूजामादिजिनेशितुः ॥ ७४ ॥

अर्थ—ते पर्वत उपर विराजमान प्रभुश्री आदीश्वर जिनेन्द्रनी सिद्धान्तमां प्ररूपेली स्नात्र विगेरे सत्तरभेदे पूजा करो ॥ ७४ ॥

महापूजा ध्वजारोपा-दिसु कृत्येष्वसौ तथा । ददौ दानं यथा श्यामो जज्ञे मेघोऽपि लज्जया ॥ ७५ ॥

अर्थ—समुद्रपाल राजाए ते शत्रुञ्जयगिरि उपर महापूजाओ ध्वजारोपण विगेरे पवित्र कार्योमां एटळुं तो पुष्कळ दान आप्युं के जे

दान जोइने वृष्टिदान करतो मेघ पण लज्जा वडे श्याम थइ गयो, अर्थात् अखूट वृष्टिदान करतो मेघ पण आ राजाना दान आगळ पोताने तुच्छ मानतो थको लज्जा पामी श्याम थइ गयो ॥ ७५ ॥

विधायाऽष्टाहिकां नाग-नामग्राहं जगत्पतेः । पूजाः दानादिसत्कृत्यैः, स निधानार्धमव्ययत् ॥७६॥

अर्थ—नागश्रेष्ठीनुं नाम ग्रहण करी श्रीजिनेन्द्रनो आठ दिवस अट्टाइ महोत्सव करी, पूजादान विगेरे सुकृत्यो करवामां ते नागश्रेष्ठीना निधानर्ना बवेलो अडथो भाग समुद्रपाल राजाए वापर्यो ॥ ७६ ॥

सिद्धक्षेत्रादथोत्तोर्य, स्वपुरं प्राविशन्नुपः । रुद्धो राज्याऽसहिष्णुत्वाद्, वाणिजो दुष्टपार्थिवैः ॥ ७७ ॥

अर्थ—हवे समुद्रपाल सिद्धक्षेत्रथी उतरीने जेवामां पोतानानगरमां प्रवेश करतो हतो, तेवामां ते वैश्य होवाथी तेने मळेला राज्यने सहन नहीं करनारा आसपासना इर्ष्याळु दुष्टराजाओए वेरी लीधो ॥ ७७ ॥

मिथः प्रवृत्ते युद्धेऽथ, भग्नां वीक्ष्य निजां चमूम् । श्रोसमुद्रनृपो यावत्, किंकर्तव्यजडोऽजनि ॥७८॥

अर्थ—परस्पर बन्ने सैन्यनुं युद्ध प्रवर्त्युं, पण छेवटमां दुश्मनोना पराक्रमथी पोतानी सेनाने वीखराइगयेली जोइ समुद्रपाल राजा 'हवे शुं करवुं?' ए प्रमाणे जेटलामां विचारवमळमां गुंचवायो ७८

तावन्निबिडबन्धेन, निबद्धान् योजिताञ्जलोन् । पादाग्रे लुठतो वीक्ष्य, रक्ष रक्षेति जल्पतः ॥७९॥

अर्थ—जेटलामां मजबूत बन्धनोथी बन्धाएलां अने बे हाथ जोडी पगमां आळोटता शत्रुराजाओने पोतानी सन्मुख 'रक्षण करो

रक्षण करो ' ए प्रमाणे बोलता जोइने ॥ ७९ ॥

विद्वेषिभूपतीन् सर्वान्, प्रोन्मुच्य निजपूरुषैः । अहो! किमिति साश्वर्यो—ऽपृच्छत्तानेव भूपतीन् ॥ ८० ॥

अर्थ—पोताना उपर द्वेष करनार अने युद्ध करनार ते सर्व शत्रुराजाओने पोताना माणसो द्वारा छोडावीने 'अहो ! आ शुं आश्वर्य बन्धुं ?' ए प्रमाणे ते राजाओने पूछ्युं ॥ ८० ॥

ते प्रोचुर्नाऽपरं विद्मो, विशेषं किन्तु सङ्गरे । अबध्यामहि दुर्बुद्ध्या, युध्यमानाः स्वयं वयम् ॥ ८१ ॥

अर्थ—त्यारे सर्व राजाओए प्रत्युत्तर आप्यो के—अमे आम बनवानुं बीजुं तां कांइ विशेष कारण जाणता नथी, परंतु दुष्टबुद्धिथी युद्ध करता अमे रणांगणमां स्वयमेव बन्धाइ गया छीए ॥ ८१ ॥


पर भवत्प्रसादेन, च्छुटिता नाऽत्र संशयः । अतः स्वसेवकान् यावज्जीवं स्वोकुरु नोऽधुना ॥ ८२ ॥

अर्थ—परंतु हे राजन् ! आपनीज कृपाद्रष्टिथी अमे छुट्या छीए एमां संशय नथी. माटे हवे आप अमो सर्वने जीवंत पर्यंत पोताना सेवकपणे स्वीकारो ॥ ८२ ॥

इत्युक्त्वा सेवकीभूतै—स्तैरेवाऽसौ परिवृतः । स्वपुरं प्राविशत् प्राज्य—प्रवेशीत्सवपूर्वकम् ॥ ८३ ॥

अर्थ—आवी रीते सेवक तरीके पोताने वश थयेळ सर्व राजाओथी परिवरेल ते समुद्रपाल राजाए मोटा उत्सवयुक्त पोताना नगरमां प्रवेश कर्यो

सभ्यान् सभायामाभाष्य, विसृज्य च नृपानसौ । सौधान्तः पूज्यन्, ददर्श व्यन्तरं पुरः ॥ ८४ ॥



अर्थ—त्यारवाद कचेरीमां सभ्यो साथे केटलीक वातचोत करी, राजाओने सन्मान पूर्वक विसर्जन करी, पोताना गृहमंदिरमां देवोने पूजे छे तेवामां पोतानी सन्मुख एक व्यंतर जोयो ॥ ८४ ॥

पृष्ठः कस्त्वमिति क्षोणि—भृता स व्यन्तरोऽवदत् । तामलिप्त्यामहं नाग—नामा प्राग् गोष्ठिकोऽभवत् ॥ ८५ ॥

अर्थ—समुद्रपाल राजाए पूछ्युं के—‘तुं कोण छे?’ त्यारे ते व्यंतरदेवे कहुं के—हुं तामलिप्ति नगरीमां प्रथम नाग नामनो गोष्ठिक हतो ॥ ८५ ॥

पूर्वजैः कारिते चैत्ये, सारां विदधतो मम । कुटुम्बं सकलं क्षीणं, देवस्वेनैव पोषितम् ॥ ८६ ॥

अर्थ—मारा पूर्वजोए बन्धावेला जिनमंदिरनी सार संभाळ करतां देवद्रव्यथीज पोषण पामेलुं मारुं सघळुं कुटुंब नाश पाम्युं ॥ ८६ ॥

देवद्रव्योपभोगेन, कुटुम्बस्य क्षयो भवेत् । नैमित्तिकादिति श्रुत्वा, भीतः कर्म तदत्यजम् ॥ ८७ ॥

अर्थ—हवे कोइक समये निमित्तियाना मुखथी सांभळ्युं के—‘देवद्रव्यनो उपभोग करवाथी कुटुंबनो नाश थाय छे’ आ प्रमाणे सांभळी हुं डर पाम्यो, अने तेथी में ते कार्य—देवद्रव्यनो उपभोग करवो छोडी दीथो. ॥ ८७ ॥

चतुर्विंशतिदीनार—सहस्रो याऽन्तिकेऽभवत् । देवसत्काऽवशिष्टा सा, क्षितौ क्षिताऽथ पत्नयुक् ॥ ८८ ॥

अर्थ—मारी पासे देवद्रव्य तरीकेनी चोवीस हजार सोनामहोरो जे बाकी रही हती, ते लेखित पत्र सहित पृथ्वीमां दाटी. ॥ ८८ ॥

कृत्यैर्यथोचितैर्जीवन्, प्रान्तेहं कष्टतो निशि । स्थविर्या प्रातिवेशिमक्या, पठ्यमानं मृदुस्वरम् ॥ ८९ ॥

श्रीशत्रुञ्जयमाहात्म्यं, श्रुत्वन्नेकाग्रमानसः । मृत्वा तद्ध्यानतोऽभुवं, व्यन्तरोऽत्रैव पर्वते ॥९०॥ युग्मम् ।
 अर्थ—त्यारपछी यथायोग्य कार्यो वडे धन मेळवी आजीविका चलावतो हुं मरण समये दुःखपूर्वक रात्रिमां नजीकना पाडोशमां र-
 हेती एक घरडी डोशीना मुखद्वारा कोमल स्वरथी कहेवाता श्रीशत्रुञ्जय तीर्थना अद्भुत माहात्म्यने एकाग्रचित्ते सांभळतो छतो मृत्यु
 पाम्यो, अने श्रीशत्रुञ्जयना ध्यानथी आज पर्वतने विषे व्यंतरदेव थयो छुं. ॥ ८९ थी ९० ॥

तत्र पूजाक्षणे स्वीयं, नाम श्रुत्वा भवन्मुखात् । स्मृत्वा च पूर्ववृत्तान्तं, प्रीतचेता व्यचिन्तयम् ॥ ९१ ॥
 अर्थ—आ पर्वतने विषे पूजा समये तमारा मुखथी माहं नाम सांभळीने पूर्वभवनो वृत्तान्त स्मरण करी माहं चित्त घणुं प्रसन्न थयुं, अने
 में विचार्युं के—॥ ९१ ॥

साध्विदं विदधे देव—द्रव्यं यद्देवपूजने । व्ययितं तत् किमप्यस्य, सान्निध्यं विदधेऽधुना ॥ ९२ ॥
 अर्थ—आ राजाए देवपूजामां देवद्रव्यनो व्यय कर्यो ते घणुंज साहं कर्युं, माटे एने हवे कांडक सहायकारी थाडं ॥ ९२ ॥

अतः सहागतेनैव, यन्त्रितास्ते मयाऽरयः । अल्पशक्तिः परं नाऽह—मन्यत्र स्थातुमीश्वरः ॥ ९३ ॥
 अर्थ—एम विचार करी श्रीशत्रुञ्जय तीर्थथी साथे आवेला में तमारा शत्रुओने दृढ बन्धनोथी बांधीलीधा हता, परंतु हुं अल्पशक्ति-
 वाळो छुं, तेथी मारा स्थान सिवाय अन्य स्थाने रहेवा समर्थ नथी ॥ ९३ ॥

अतो याताऽस्मि तत्रैव, परं यात्राद्रयस्य मे । प्रत्यब्दं सुकृतं देयं, प्रपेदे सोऽपि तद्वचः ॥ ९४ ॥

अर्थ—माटे हुं मारा स्थानके जाउं छुं. पण छेवटमां मारे तमोने एटलुं जणाववानुं के, तमारे दर वर्षे मारा निमित्ते बे यात्रानुं पुण्य देवुं. आ प्रमाणे ज्यारे व्यन्तरदेवे पोतानो समस्त व्यतिकर राजाने स्पष्ट कही बताव्यो, अने छेवटनी बे यात्राना पुण्यनी भागणी करी ल्यारे राजाए पण तेनुं वचन मान्य कर्युं ॥ ९४ ॥

यतः—यद्भस्तु दीयते चेत्तत्, सहस्रगुणमाप्यते । तद्वत्ते सुकृते पुण्यं, पापे पापं च तद्गुणम् ॥ ९५ ॥

अर्थ—जे वस्तु दान तरीके आपवामां आवे छे, तेथी हजारगणी प्राप्त थाय छे. वळी जे सुकृतने विषे अपाय छे ते पुण्य आपे छे, अने जे पाप आरंभकारी कार्यमां अपाय छे ते तेटला ज गणुं पाप आपे छे. ॥ ९५ ॥

दीयमानं धनं किञ्च, धनिकस्याऽपचोयते । सुकृतं दीयमानं तु, धनिकस्योऽपचोयते ॥ ९६ ॥

अर्थ—वळी धनिकपुरुषनुं दान करातुं धनतो ओछुं थाय छे, पण दान करातुं सुकृत तो धनिकने वृद्धिज पामे छे—सुकृतनुं जेम जेम दान करीए तेम तेम घटवाने बदले ते वधतुंज जाय छे ॥ ९६ ॥

श्राव्यते सुकृतं यावद्, योऽन्तकालेऽपि तावतः । निजश्रद्धानुमानेन, स तदैवाऽश्नुते फलम् ॥ ९७ ॥

अर्थ—जे माणसने अंत वखते पण जेटलुं सुकृत संभळाय छे ते मनुष्य पोतानी श्रद्धाना अनुमाने करीने तेटला सुकृतना फळने तेज वखते प्राप्त करे छे ॥ ९७ ॥

ततः श्रावयिता पश्चाद्, विधते मानितं यदि । तदा सोऽप्यनृणः पुण्य-भाग् भवेदन्यथा न तु ॥ ९८ ॥

अर्थ—त्यार पछी सुकृत संभळावनार जो मानेलुं सुकृत पाछळथी करेतो ते माणस पोताना देवामांथी छुटे छे, अने पोते पण पु-
प्यनो भागी बने छे, पण जो न करे तो तेथी विपरीत फळ पामे छे ॥ ९८ ॥

अश्रावितोऽपि श्रद्धते, सुकृतं यः क्वचिद्गतौ । जानन् ज्ञानादिभावेन, सोऽपि तत्पलमाप्नुयात् ॥९९॥

अर्थ—जे प्राणीने सुकृत संभळाव्युं न होय, तो पण जो ते स्वयमेव सुकृतनी श्रद्धा करे, अने पछीकोइ पण गतिमां ज्ञानादि भा-
वथी जाणे तो ते पण ते सुकृतनुं फळ प्राप्त करे छे ॥ ९९ ॥

अन्यथा सुकृतं तन्वन्, स्वजनः स्वजनाख्यया । व्यवहारप्रीतिभक्ति-रेव ज्ञापयति ध्रुवम् ॥१००॥

अर्थ—जे कुटुम्बीए पोताना कुटुम्बीना अंतकाळे जे सुकृत संभळाव्युं न होय ते सुकृत पाछळथी पोताना कुटुम्बीना नामे करे तो
ते खरेखर व्यवहार साचवे छे, अने मरनार उपरनी पोतानी प्रीति अने भक्तिज जणावे छे ॥१००॥

अथ तस्मिंस्तिरोभूते, व्यन्तरे क्षोणिनायकः । साक्षात् पुण्यफलं दृष्ट्वा-ऽभवत्तत्रैव सादरः ॥१०१॥

अर्थ—हवे ते व्यन्तर देव अदृश्य थइ गया पछी, राजा समुद्रपाल पुण्यनुं प्रत्यक्ष फळ देखी पुण्योपार्जन करवामांज आदरयुक्त थयो. ॥१०१॥

बुद्धि बन्धोरपि श्रेयो-विषये काङ्क्षताऽन्यदा । तामलिप्यां तदाहूति-हेतोः प्रैशोन्नितो नरः ॥१०२॥

अर्थ—पोताना लघु बांधव सिंहे जो के पोतानुं अनिष्ट करेलुं हतुं, छतां 'कोइ पण रीते तेनुं श्रेय थायतो साहं' एम विचारी तेनुं
कल्याण करवानी बुद्धिथी सज्जन स्वभावनी समुद्रपाले एक दिवस तामलिप्ती नगरीमां तेने बोलाववामाटे पोताना विश्वासु माणसने मोकल्यो ॥

स तत्र गत्वाऽऽगत्याथ, प्रोचे सिंहोऽस्ति तत्र न । प्रपलाय्य गतः क्वापी—त्यापि शुद्धिः पुरे न तु ॥१०३॥

अर्थ—ते माणस तामलिही नगरीमां जइने पाछो आव्यो, अने कडुं के—‘सिंह तामलिही नगरीमां नथी, अने नासीने क्यां गयो छे तेनी पण तपास करवा छातां शोध मळी शकी नथी’ ॥१०३॥

न्यायेन पालयन् राज्यं, प्रत्यब्दं स्वकुटुम्बयुक् । यात्रा अनेकशः कुर्व—श्चिरं सौख्यमभुङ्क्त सः ॥१०४॥

अर्थ—समुद्रपाल नीतिथी पोतानां राज्यनुं पालन करवालाग्यो, अने प्रत्येक वर्षे शत्रुंजयादि तीर्थोनी अनेक यात्राओ करतो छतो घणो काळ सुख भोगववा लाग्यो ॥१०४॥

अभूतपूर्वं श्रुत्वा त—द्वैरनिर्यातनं नृपाः । कम्पमानाः साभिमाना, अप्यस्मै नेमिरे स्वयम् ॥१०५॥

अर्थ—भिन्न भिन्न देशना राजाओ अभिमानी अने पराक्रमी होवा छातां पण पूर्वे कदापि नहीं अनुभवेलो बैरनो बदलो सांभळी तेना पुण्य प्रतापथी कंपायमान थता पोतानी मेळेज नमवा लाग्या ॥१०५॥

राज्ये न्यस्य सुतं ज्येष्ठं, लक्ष्मीं कृत्वाथ पुण्यसात् । समुद्रपालो वैराग्याद्, ब्रतमादत्त सद्गुरोः ॥१०६॥

अर्थ—पवित्रात्मा ते समुद्रपाल राजाए नीतिपूर्वक घणा वर्ष राज्य कर्युं. छेवटे पोताने वैराग्य थवाथी मोटा पुत्रने राज्य उपर स्थापन कर्यो, अने पुण्यार्थे सारां कार्योमां लक्ष्मीनो व्यय करी सद्गुरु पासे दीक्षा ग्रहण करी ॥१०६॥

अथैकविंशतिघसान्, साधिताऽनशनः शमो । जज्ञे सर्वार्थसिद्धारुख्ये, विमानेऽनुत्तरे सुरः ॥१०७॥

अर्थ—वैराग्यमां मग्न बनेला ते समुद्रपाल महामुनि शांतिपूर्वक एकवीश दिवस अणसण करी सर्वार्थसिद्ध नामना देवलोकने विषे अनुत्तर विमानमां देवपणे उत्पन्न थया ॥१०७॥

ततश्च्युत्वा कुलं शुद्धं, लब्ध्वा संयमराज्यतः । आसाद्य केवलं ज्ञानं, मोक्षसौख्यमवाप सः ॥१०८॥

अर्थ—त्यांथी च्यवीने पूर्व भवमां प्राप्त करेला श्रेष्ठ चारित्ररूप राज्यना बलथी उत्तम कुळ पामीने केवलज्ञान प्राप्त करी मोक्षे गया.

इतश्च तामलिप्त्यां स, सिंहः श्रुत्वा स्वबान्धवम् । राज्ञा विस्मृष्टं सत्कृत्य, यात्रार्थं सत्यभाषणात् ॥१०९॥

निजाऽऽगःशङ्कया सर्व-मादाय सपरिच्छदः । जगाम सिंहलद्वीपं, पोतमारुह्यतत्क्षणात् ॥११०॥ युग्मम् ।

अर्थ—हवे तामलिप्ती नगरीमां समुद्रपालनो नानो भाइ जे सिंह हतो तेणे पोताना मोटा भाइने कष्टमां नाखवा माटे राजाने भंभेयो हतो, पण समुद्रपाले सत्य हकीकत जाहेर करवाथी छेवटे सत्यनो विजयथयो अने तेथी समुद्रपालनो दंड करवाने बदले तेनो उलटो सत्कार करी राजाए शत्रुंजयनी यात्रा माटे विसर्जन कर्यो. आ प्रमाणे बनेली हकीकत सांभळी पोते राजानो गुन्हेगार बनवानी शंकाथी सिंह परिवार सहित पोतानुं सर्व लइने तेज क्षणे वहाण उपर चढी समुद्र मार्गे सिंहलद्वीप गयो ॥ १०९ थी ११० ॥

राजप्रसादं तत्राप्य, दन्तिदन्तजिघृक्षया ! घोरे स्वयमरण्येऽगा-दलाभादन्यवस्तुनः ॥१११॥

अर्थ—सिंहलद्वीपमां सिंहे त्यांना राजानी महेरबानी मेळवी. पळी अन्य वस्तुओनी खरीदोथी लाभ न थाय तेवुं होवाथी हाथीदांत ग्रहण करवानी इच्छाथी पोते घोर अरण्यमां गयो ॥१११॥

स तत्र दन्तिवधकै—र्दन्तवृन्दान्यथाऽऽनयत् । पापद्रव्येण यत् पापे—ष्वेव बुद्धिः प्रजायते ॥११२॥

अर्थ—ने जंगलमां हाथीना वध करनार माणसो द्वारा हाथीदांत मंगावीने खरीद कर्या. खरेखर शास्त्रकारोए सत्यज वचन कहुं छे के—‘पापथी संचय करेल धनथी पापकारी अधम कृत्यो करवानीज बुद्धि उत्पन्न थाय छे.’ आपणामां एक लौकिक सादी कहेणी छे के—‘जेवो आहार तेवो ओडकार.’ माटे सुज्ञ जनोए नीतियुक्त धन उपार्जन करवामांज प्रयत्नशील बनवुं जोइए. श्रावकने प्रथम मोक्षमार्ग तरफ दोरवनार मार्गानुसारीना पांतीशगुणो पैकी ‘न्यायथी द्रव्य मेळववुं’ ए प्रथम गुण छे. अने ए गुण मेळववा माटे दरेक मनुष्ये पोताना विचार मकम करवा जोइए के “ मारा जीवननो सुखपूर्वक निर्वाह करवा माटे नीतिभार्गथी द्रव्य मेळवीश. ” आ जीवनसूत्र दरेके पोताना हृदयपट्ट उपर सुवर्णाक्षरे कोतरी राखवुं जरूरनुं छे ॥११२॥

भृत्वा चत्वारि यानानि, दन्तैर्वारिधिवर्त्मना । मुक्त्वा कुटुम्बं तत्रैव, सुराष्ट्रां प्रति सोऽचलत् ॥११३॥

अर्थ— हवे ते सिंहे त्यां हाथीदांत खरीद करी चार वहाण भर्या, अने पोताना कुटुंबने त्यांज मूकी समुद्र मार्गे सोरठ देश तरफ ते चाल्यो ११३ तोत्वा समुद्रं क्षेमेण, सुराष्ट्रात्संकटे । भग्नानि तानि यानानि, न हि श्रेयोऽतिपापिनाम् ॥११४॥

अर्थ—समुद्रमार्गे जतां जतां ठेठ सुधी जलमार्ग कुशलतापूर्वक ओळंग्यो, पण सोरठ देशना किनारा नजीक आवतां अकस्मात् कोइ खराबा साथे अथडावाथी चारे वहाण भांगी गयां; खरेखर पापकर्मथी आजीविका चलावनार अति पापी पुरुषोनुं कदापि कल्याण थवुं नथी ॥ ११४ ॥

ततः सिंहो विपद्याऽऽद्य-नरकं तत्र वेदनाः । विषह्योद्धृत्य संजातः, सिंहो हिंसापरायणः ॥११५॥

अर्थ—चारे वहाण भांगी जवाथी सिंह समुद्रमां डूबी मरणने शरण थयो, अने पहेली नारकीमां उत्पन्न थयो. त्यां अत्यंत तीव्र वेदनाओ सहन करी, आयुष्य पूर्ण थतां त्यांथी नीकळी तिर्यचना भवमां हिंसाने विषे तत्पर एवो सिंह थयो ॥ ११५ ॥

आद्य गत्वा पुनः श्वभ्रं , जज्ञे दुष्टसरीसृपः । द्वितीयनरकं भुक्त्वा, दुष्टदक्षी बभूव सः ॥११६॥

अर्थ—सिंहना भवमां पण अनेक प्रकारनां हिंसादि कृत्यो करी फरी पहेली नारकीमां गयो. त्यांथी नीकळी दुष्ट सापपणे उत्पन्न थयो. त्यांथी बीजी नारकीमां गयो, त्यां पण अपार दुःखो भोगवी दुष्ट पक्षी थयो. ॥ ११६ ॥

तृतीयनरकं प्राप्य, दुष्टसिंहोऽभवद् वने । चतुर्थनरकं गत्वा, सर्पोऽजायत दृग्विषः ॥११७॥

अर्थ—त्यार बाद त्रीजी नारकीमां गयो. त्यांथी वनमां दुष्टसिंह थयो. सिंहनुं आयुष्य पूर्ण करी चोथी नारकीमां गयो, त्यां कष्टकारक दुःखो भोगवी दृष्टिविष सर्प थयो. ॥११७॥

पञ्चमं नरकं लब्ध्वा, चण्डालस्त्री ततोऽजनि । अवाप्य नरकं षष्ठ-मजनिष्ठाऽर्णवे तिमिः ॥११८॥

अर्थ—त्यांथी पांचमी नारकीमां गयो, त्यारबाद चंडालनी स्त्री थयो. तदनन्तर छठी नारकीमां गयो. त्यांथी समुद्रमा मत्स्य थयो. ॥

सप्तमं नरकं गत्वा मत्स्योऽजायत तन्दुलः । पुनः सप्तममेवाऽगा-न्नरकं दुःखसागरम् ॥११९॥

अर्थ—मत्स्यनुं आयुष्य पूर्ण करी सातमी नारकीमां गयो. त्यांथी नीकळी तंदुलीयो मत्स्य थयो. त्यांथीवळी पाछो दुःखना सागर सभान सातमीज नारकीमां गयो. ॥११९॥

विपर्यासेन चण्डाल-स्त्र्याजियोनिषु पूर्ववत् । क्रमेण सेहे कष्टानि, पष्ठादिनरकेषु च ॥१२०॥

अर्थ—वळी पाछो विपर्यासवडे (उलटी रीते) चंडालस्त्री विगेरे योनिमां तथा क्रमसर छद्दी विगेरे नारकीमां पूर्वनी जेम उत्पन्न थइ असह्य कष्टो सहन कर्या ॥ १२० ॥

ततो निपतितो घोरे, संसारे दुःखसागरे। देवद्रव्यविनाशस्य, ज्ञेयं सर्वमिदं फलम् ॥१२१॥

अर्थ—त्यार पळी दुःखसागर घोर संसारमां भिन्न भिन्न स्थळे उत्पन्न थइ अपार कष्टो सहन करतो छतो रझळ्यो. आ सर्व देवद्रव्य विनाशनुंज फळ जाणवुं ॥ १२१ ॥

अन्यायात् स्वल्पदेवस्व-भक्षणादपि यद्यभूत् । शैवः श्रेष्ठो सतकृत्वः, श्वाऽतो चैत्याज्यमेव तत् ॥१२२॥

अर्थ—अन्यायथी जरा मात्र पण देवद्रव्यनुं भक्षण करवाथी शैव श्रेष्ठ सातवार कूतराना भवमां उत्पन्न थयो, माटे खरेखर ते तजवा योग्य छे ॥

अत्रान्तरे विभो ! कोऽसौ, श्रेष्ठो जातश्च श्वा कथम? । इति नाभाकभूपेन, पृष्टे गुरुरभाषत ॥१२३॥

अर्थ—आ वखते नाभाकराजाए महात्मा युगंधराचार्यने पूछ्युं के—‘प्रभो ! आ शैव श्रेष्ठ कोण ? अने तेने सात वखत कूतरानो अवतार केम ग्रहण करवो पड्यो ?’ आ प्रमाणे नाभाक राजाए पूछवाथी सद्गुरु महाराजे पण ते चरित्रनुं स्वरूप नीचे प्रमाणे क-

हेवानो आरंभ कर्यो ॥ १२३ ॥

उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यो-भरतैरवतक्षितौ । प्रत्येकं किल जायन्ते, शलाकाः पुरुषा अमी ॥१२४॥

चतुर्विंशतिरहन्त-स्तथा द्वादश चक्रिणः । विष्णुप्रतिविष्णुरामाः, प्रत्येकं नवसङ्ख्यया ॥१२५॥

अर्थ—भरतक्षेत्र अने ऐरवतक्षेत्रमां उत्सर्पिणी अने अवसर्पिणी काळमां त्रेसठ त्रेसठ शलाकापुरुषो थाय छे, अने ते आ प्रमाणे—चोवीश तीर्थकर, बार चक्रवर्ती, नव वासुदेव, नव प्रतिवासुदेव अने नव राम (बलदेव) ॥ १२४ थी १२५ ॥

एतेषु पूर्वं श्रीरामो राज्यं न्यायेन पालयन् । कृपया निःस्वलोकानां, न्यायघण्टामवीवदत् ॥१२६॥

अर्थ—ए त्रेसठ पुरुषोमां पहेलां श्रीराम नीतिपूर्वक राज्यनुं पालन करतो हतो, अने गरीब प्रजा उपर दयादृष्टि राखी न्यायनो डंको वजडाव्यो हतो

एकदा कुर्कुरः कश्चि-न्निविष्टो राजवर्त्मनि । केनचिद् विप्रपुत्रेण, कर्करेणाहतः श्रुतौ ॥१२७॥

अर्थ—तेना राज्यमां एक दिवस जाहेर रस्ता उपर एक कूतरो बेठो हतो, ते कूतराने कान उपर कोइ ब्राह्मणना छोकराए कांकारो फेकी घायल कर्यो ॥ १२७ ॥

श्वा निर्यद्गुधिरो न्याय-स्थानं गत्वा निविष्टवान् । भूपेनाहूय पृष्टोऽवग्, निरागाः किमहं हतः? ॥१२८॥

अर्थ—वहेता लोहीथी खरडायेल ते कूतरो राजाना न्यायमंदिरमां जइ बेठो. राजाए तेने बोलावीने राजसभामां आववानुं कारण पूछ्युं, त्यारे तेणे कहुं के—‘हुं निरपराधी छतां मने ब्राह्मणना छोकराए केम मार मार्यो ?’ ॥१२८॥

तद्घातकं विप्रपुत्रं, तत्रानाय्य नृपोऽब्रवीत् । असौ त्वद्घातको ब्रूहि, कोऽस्य दण्डो विधीयते? ॥१२९॥

अर्थ—राजाए तेने मारनार ब्राह्मणना छोरानी तपास करावी सभामां बोलाव्यो , अने कूतराने कहुं के—‘ आ तने मारनार छे, माटे बोल, आने शुं शिक्षा करवी ?’ ॥ १२९ ॥

श्वाऽवोचदथ रुद्रस्य, मठेऽयं हि नियोज्यताम् । क एष दण्डो राज्ञेति, पृष्ठः श्वा च पुनर्जगौ ॥१३०॥

अर्थ—कूतराए कहुं के—‘ तेने मात्र एटलीज शिक्षा करो के अहींना शिवना देवालयमां तेनी पूजारी तरीके नीमणुंक करो ’ । आ प्रमाणे कूतराए कहेलुं अयोग्य वचन सांभळी राजाए विस्मित थइ पूछ्युं के—‘ आ शुं दंड कहेवाय ?’ । त्यारे कूतराए पोतानो सर्व सविस्तर वृत्तान्त जणाव्यो के—॥ १३० ॥

प्रागहं सप्तजन्मभ्यः, पूजयित्वा सदा शिवम् । देवस्वभीत्या प्रक्षाल्य, पाणी भोजनमाचरम् ॥१३१॥

अर्थ—हुं मारा आ कूतराना जन्मथी सात भव पहेलां मनुष्य हतो, अने हमेशां शिवनी पूजा करी देवद्रव्य भक्षण करवाना दोषथी डर पामी मारा वन्ने हाथ धोइने जमवा बेसतो हतो ॥ १३१ ॥

स्त्यानाज्यमन्यदा लिङ्ग-पूरणे लोकढौकितम् । विकरणेऽस्य काठिन्याद्, नखान्तः प्राविशन्मम ॥१३२॥

अर्थ—एक दिवसे लोकोए शिवलिंग पूरवा माटे थीजेलुं घी मूक्युं. कठिन होत्राथी ते घी छूटुं पाडतां मार नखमां भराइ गथुं ॥१३२॥

विलीनमुष्णभक्तेना—ऽजानता तन्मयाहृतम् । तेन दुष्कर्मणा सप्त-कृत्वो जातोऽस्मि मण्डनः ॥१३३॥

अर्थ—त्यार बाद शिवना मंदिरमांथी नीकळी घेर आवी भोजन करवा बेठो. उष्ण भोजनथी ते नखमांनुं घी ओगळी गयुं, अने जमतां जमतां अजाणतां ते घी पण भोजन साथे खवाइ गयुं. फक्त एटलाज देवद्रव्यनुं भक्षण करवा रूप दुष्कर्मथी हुं सातवार कूतराना जन्ममां अवतर्यो ॥ १३३ ॥

सप्तमेऽस्मिन् भवे राजन् !, जाता जातिस्मृतिर्मम । अधुना तत्प्रभावेणो—त्पन्ना वाग् मानुषो पुनः ॥१३४॥

अर्थ—हे राजन् ! आ सातमा भवमां मने जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न थयुं छे, अने हमणां तेना प्रभावथी मने मानुषी वाचा उत्पन्न थवाथी आ बीना तमारी समक्ष यथार्थ निवेदन करी छे ॥१३४॥

अत्रान्तरे गुरुं नत्वा, जगौ नाभाकभूपतिः । श्रुत्वतिह्यमदो बाहं, कम्पते हृदयं मम ॥ १३५ ॥

अर्थ—आ प्रमाणे गुरुमहाराजना मुखथी पूर्वोक्त दृष्टान्त सांभळी नाभाकराजाए गुरुमहाराजने नमस्कार करी कहुं के—‘ प्रभो ! आ कथानक सांभळी म्हाहं हृदय घणुंज कपायमान थाय छे ’ ॥ १३५ ॥

गुरुरुचेऽथ यद्येवं, तत्कथामग्रतः शृणु । यथा सम्यक् फलं वेत्सि, देवद्रव्यविनाशिनाम् ॥ १३६ ॥

अर्थ—त्यारे गुरुमहाराजे कहुं के—‘ जो एम छे तो हवे आगळ नागश्रेष्ठीनी कथा सांभळ, के जेथी देवद्रव्य विनाश करनारने केवुं फळ प्राप्त थाय छे तेनुं तने सम्यक् प्रकारे जाणपणुं थाय, अने तेथी तुं सदाने माटे अलग रहे ’ ॥ १३६ ॥

षष्टिवर्षसहस्राणि, श्रीशत्रुंजयपर्वते । आयुर्भुक्त्वा नागजीवो, व्यन्तरश्च्युतवानथ ॥ १३७ ॥

अर्थ—व्यन्तर देवपणे उत्पन्न थयेल नागश्रेष्ठीनो जीव श्रीशत्रुंजय पर्वत उपर साठ हजार वर्षनुं आयुष्य भोगवी त्यांथी च्यव्यो ॥ १३७ ॥

कान्तिपुर्या रुद्रदत्त—कौटुम्बिकमुतोऽभवत् । सोमाभिधानस्तन्माता, पञ्चमेऽब्देऽहिना मृता ॥ १३८ ॥

अर्थ—श्रीशत्रुंजय पर्वत उपर व्यन्तरपणे उत्पन्न थयेल नागश्रेष्ठीनो जीव साठहजार वर्षनुं आयुष्य भोगवी च्यवीने कांतिपुरी नगरीमां रुद्रदत्त नामना कुटुंबीनो सोम नामनो दीकरो थयो. ते पुत्र ज्यारे पांच वर्षनी उमरनो थयो त्यारे तेनी माता सर्पदंश थवाथी मरण पासी ॥ १३८ ॥

तत्रास्ति नास्तिकः प्राति—वेदिमको देवपूजकः । सोमोऽपि सह तत्पुत्रै—र्याति देवनिकेतने ॥ १३९ ॥

अर्थ—ते नगरीमां तेना घरनी नजीक नास्तिक नामनो देवनो पूजारी पाडोशी रहेतो हतो ते पूजारीना पुत्रो साथे सोम पण देवमंदिरमां जवा लाग्यो ॥ १३९ ॥

देवद्रव्यमयैः पूजा—ऽवशिष्टैश्चन्दनैर्वपुः । विलिप्याकण्ठमाच्छाद्य, वाससा पर्यटत्यसौ ॥ १४० ॥

अर्थ—पूजा करतां बाकी रहेल देवद्रव्य रूप चंदनथी पोताना आखा शरीरे विलेपन करी, कोइना देखावमां न आवे माटे गळा सुधी वस्त्र ढांकीने सोम हमेशां पूजारीना छोकराओ साथे रजळवा लाग्यो ॥ १४० ॥

वयःस्थः सोऽन्यदा देव—कोषं हृत्वा पलायितः । स्तेना मुषित्वा तं पार—सीकदेशे विचिक्रियुः ॥ १४१ ॥

अर्थ—हवे ज्यारे सोम योग्य उम्मरनो थयो त्यारे एक दिवस ते शिवना मंदिरमांथी देवनो भंडार चोरीने नासी गयो, तेनुं चोर लोकोए हरण करी पारसीक देशमां वेच्यो ॥ १४१ ॥

तत्र वस्त्राणि रज्यन्ते, तस्य रक्तैस्ततोऽसकौ । पलाय्याऽम्भोधिमुत्तीर्य, व्रजन्नध्वनि कुत्रचित् ॥१४२॥
ग्रामप्रवेशेऽभ्यायान्तं, मुनिं मासोपवासिनम् । निहत्य यष्टया लीन् वारान्, पापः पृथ्व्यामपातयत् ॥१४३॥

अर्थ—पारसीक देशमां तेना लोही वडे वस्त्रो रंगावा लाग्या. आवी रीते आपत्तिमां आवी पडेलो ते सोम लाग जोइ त्यांथी नाठो, समुद्र उतरिने रस्तामां जतां कोइ एक गाम आव्युं. गाममां पेस्तां तेनी सन्मुख आवता मास उपवासवाळा एक मुनीने ते पापीए लाकडी वडे त्रण वार प्रहार करी जमीन उपर पांडी दीधा. ॥ १४२ थी १४३ ॥

तस्मिन्नथ विपन्नेऽसौ, नश्यन्नारक्षकैर्धृतः । कृपया मोचितः श्राद्धैः, पलाय्यं कृतवानथ ॥१४४॥

अर्थ—लाकडीना अतिशय प्रहारथी मुनिराज त्यांज मरण पास्या. मुनिने मारो सोम त्यांथी नासतो हतो तेवामां रस्तामां कोटवाळोए पकळ्यो, पण त्यांना दयाळु श्रावकोए करुणा लात्री छोडाव्यो. त्यारवाद सोम त्यांथी पलायन करो जंगलमां चाल्यो गथो ॥१४४॥

मृत्वा दावाग्निनाऽरण्ये, सप्तमं नरकं गतः । ऋषिहत्यामहापापं, तत्कालं स्यात् फलप्रदम् ॥१४५॥

अर्थ—अरण्यमां दावानळथी मरण पामीने सातमी नारकोमां गयो, कारण के मुनिहत्यानुं महापाप तत्काल फळ आपे छे ॥१४५॥

सागराणि त्रयस्त्रिंश-तत्र भुक्त्वा महाव्यथाः । उद्धृतो घोरसंसारं, भ्रमित्वा हालिकोऽभवत् ॥१४६॥

अर्थ—हवे ते सोम सातमी नारकीमां तेत्रीश सागरोपम सुधी महाव्यथाओ भोगवी, त्यांथी नीकळी दुःखमय संसारमां भटकी भटकी खेडुत थयो
 कौशिकाख्योऽम्बरग्रामे, ग्रामेशस्य गृहे च सः। कर्माणि कुर्वन् सर्वेषां हालिकानां कृतेऽन्यदा ॥१४७॥

आदाय भक्तं प्राचालीद्, मार्गं मासोपवासिनम् । वीक्ष्य सन्मुखयान्तं, मुनिं भक्त्या न्यमन्त्रयत् ॥१४८॥

अर्थ—खेडुतना भवमां जन्म लीघेल सोमनुं नाम कौशिक हतुं ते कौशिक अंबर नामना गाममां ते गामना स्वामीने वेर काम करतो, अने पोतनो निर्वाह चलावतो. एक दिवशे कौशिक सर्व खेडुतोने माटे भात लइ खेतर जवाने नीकळ्यो. रस्तामां मास उपवासवाळा एक मुनिराजने सामा आवता जोइ अत्यन्त भक्तिपूर्वक पोतानी पासे रहेल भात वहोराववा विनति करी ॥ १४७ थी १४८ ॥

यात्राद्रथफलं पूर्वं, प्रत्यब्दं यत् समुद्रतः । तेन प्राप्तं ततः पुण्यात्, तस्थैषा वासनाऽजनि ॥१४९॥

अर्थ—तेने आ खेडुतना भवमां मुनिने अन्न वहोराववा रूम शुभ अध्यवसाय उत्पन्न थयो तेनुं कारण एज के, तेणे पूर्वभवमां समुद्रपाल राजा पासेथी दर वर्षे बे यात्रानुं फळ मेळव्युं हतुं, अने ते पुण्याना प्रभावथीज तेने आवा प्रकारनी शुभ वासना उत्पन्न थइ.

स्यादेतद्भक्तभोक्तृणा—मन्तरायस्ततो न मे । कल्पतेऽन्नमिदं साधु—नेत्युक्ते च सको जगौ ॥१५०॥

अर्थ—कौशिके भात ग्रहण करवानी विनति करी त्यारे मुनिराजे कहुं के—‘ आ भोजन तुं खेतरमां भोजन करनाराओ माटे लइ जाय छे, ते अन्न जो हुं ग्रहण करंतो तेओने अंतराय थाय, तेथी आ भात मारे वहोरवुं कल्पे नहीं. आ प्रमाणे मुनिराजे ज्यारे भात वहोरवानी अनिच्छा दर्शावी त्यारे तेणे कहुं के—॥ १५० ॥

कृत्वोपवासमप्यद्य, दास्ये भक्तं निजं ध्रुवम् । सद्यः प्रसद्य गृहीते—त्याग्रहादग्रहीद् मुनिः ॥१५१॥

अर्थ—‘हुं आजे उपवास करीने पण मारा भागनुं भोजन आपने बहोरावीशज, माटे मारा उपर कृपा करी जलदी आ भात ग्रहण करो’ । आ प्रमाणे तेना अतिशय आग्रहथी मुनिराजे ते अब्ब बहोर्युं ॥१५१॥

ततः कृत्वोपवासं स निषेधं चाऽसुमद्वधे । साधोः पार्श्वात् प्राप्तराज्य—मिवात्मानममन्यत ॥१५२॥

अर्थ—त्यारबाद ते खेडुते मुनिराज पासेथी उपवासनुं तथा प्राणिवधनुं पञ्चक्वाण करी खरेखर आजे में महात्मा मुनिराजने अब्ब-दान आपी राज्य मेळव्युं छे, ए प्रमाणे पोताना आत्माने मानवा लाग्यो ॥१५२॥

एवमर्जितसत्कर्मा, कौशिको भद्रकाशयः । विपद्य चित्रकूटाद्रौ, चित्रपुर्यां नृपोऽभवत् ॥१५३॥

अर्थ—आवी रीते भद्रक परिणामी ते कौशिक पुण्य उपार्जन करी, आयुष्य पूर्ण थतां मरण पामी, चित्रकूट पर्वत उपर रहेल चित्र-पुरी, नगरीमां राजा थयो ॥ १५३ ॥

चन्द्रादित्याभिधः शुद्ध—दयापुण्यविभावितः । निरामयो महारूपा—ऽनङ्गीकृतमनोभवः ॥१५४॥

अर्थ—तेनुं नाम चन्द्रादित्य राखवामां आव्युं हतुं. चन्द्रादित्यनुं हृदय शुद्धदया अने पुण्यना संस्कारवाळुं हतुं, शरीरे निरोगी हतो, तेनुं शारीरिक सौंदर्य अने लावण्य एटळुं बधुं सुशोभित हतुं के जाणे रूपमां कामदेव पण तेनाथी पराभव पामे ॥ १५४ ॥

तस्याऽऽकण्ठत्रपुर्दुष्ट—कुष्ठेनाश्लिष्टमन्यदा । तेनाऽऽकण्ठपटोच्छन्न—देह एव स तिष्ठति ॥१५५॥

अर्थ—पूर्व भवमां करेला कर्मना उदयथी कोइ दिवस तेने पगथी मांडीने गळा सुधी शरीरे दुष्ट कोढ रोग उद्भव पाम्यो, तेथी ते सदैव गळा सुधी वस्त्रथी आच्छादित थइनेज रहे छे ॥ १५५ ॥

कदाचित् प्राढपापद्धि—रपि पापद्धिहेतवे । तत्सामग्रीयुतः प्राप, श्वापदानां पदं वनम् ॥१५६॥

अर्थ—चन्द्रादित्य कर्मना उदयथी पूर्वे करेला अतिशय पापनुं फळ भोगवी रह्यो हतो, छतां हजु सुधी तेनी बुद्धि ठेकाणे न आवी, अने दुष्ट मतिथी विवेकहीनबनेलो ते राजा शिकार करवा माटे शिकारी पशुओथी व्याह्र बनेला वनमां शिकारनी सामग्रीयुक्त थइने गयो ॥

तत्र रङ्गचतुरङ्गेण, कुरङ्गवधरङ्गतः । धावमानो मुनिं कायो—त्सर्गस्थं वोक्ष्य पृष्टवान् ॥ १५७ ॥

अर्थ—वनमां पूर वेगथी दोडता घोडा वडे हरणीयाओनो वध करवाने आशक्त बनेला अने तेओनी पाछळ पडेला ते राजाए का-उसगमां रहेला एक मुनिने देखी पूछ्युं के—॥१५७॥

कस्यां दिशि मृगा जग्मु—स्त्रिः प्रोक्ते नाऽवदन्मुनिः । राजा जिघांसुर्बाणेन, तमपि स्तम्भितोऽभितः ॥१५८॥

अर्थ—‘मृगलाओ कइ दिशामां गया छे?’ आ प्रमाणे त्रण वखत चन्द्रादित्ये पूछवा छतां मुनिराज कांइ बोलया नहीं, त्यारे ते मु-न्निके पण बाण वडे हणवानी इच्छावाळो चन्द्रादित्य तैयार थयो ॥ १५८ ॥

कायोत्सर्ग पारयित्वा, मुनिस्तारस्वरं जगौ । प्राच्याच्छुटसि नाऽद्यापि, नव्यं च कथमर्जसे? ॥१५९॥

अर्थ—मुनिए काउसगग पारीने अतीव गंभिर स्वरे कळुं के—‘हजु सुधी पूर्वना बांधेला कर्मथी तो छूटतो नथी, अने नवां कर्मो केअ बांधे छे?’

मुनेर्निनंसया सद्यो, मुत्कलाङ्गौत्थ भूपतिः । प्राच्य-नव्यादिवृत्तान्तं, षप्रच्छ प्रणिपत्य तम् ॥१६०॥

अर्थ—मुनिराजनी आवा प्रकारनी गूढ अर्थवळी वाणी सांभळी तेमने वंदन करवानी इच्छाथी राजाएं जलदी पोतना शरीर उपरथी हथियार विगेरे उतारी नाखी, मुनिराजने वंदन करी, प्राच्य कर्म अने नवीन कर्म विगेरे सर्व बीना पूछी ॥१६०॥

प्रोचे मुनिरथोऽयोध्या—प्राप्तकेवलिनो मुखात् । देवद्रव्यविनाशस्या—ऽधिकारेप्रौढवर्षदि ॥१६१॥

त्वत्पूर्वभवसम्बन्धं, त्वद्बोधं चाऽथ भाविनम् । ज्ञात्वाऽऽगत्य वनेऽत्राहं, कायोत्सर्गेण तस्थिवान् ॥१६२॥ युग्मम् ।


अर्थ—मुनिराज बोल्या के—“ अयोध्या नगरीमां प्राप्त थयेल केवली भगवानना मुखथी प्रौढ पर्षदामां ‘देवद्रव्यनो विनाश करवाथी प्राणीने केवी विडंबना भोगववी पडे छे ’ तेनो अधिकार चालतो हतो, तेमां में तारा पूर्वभवनुं संपूर्ण वृत्तान्त सांभळ्युं; अने तुं माराथीज प्रतिबोध पामीश ए प्रमाणे जाणीने हुं आ वनमां काउसग्न ध्याने रह्यो हतो ॥ १६१ थी १६२ ॥

को मे प्राग्भवसम्बन्ध, इति पृष्टे नृपेण सः । प्राचीकथन्मुनिर्नाग—गोष्ठिकाख्यानमादितः ॥१६३॥

अर्थ—नृपतिए पूछ्युं के—‘ स्वामीन् ! मारा पूर्वभवनो शो वृत्तान्त छे ते कृपाकरी जणावो.’ त्यारे शांत मुद्राधारी तेमज परोपकारमांज निरंतर परायण मुनिराजे नागगोष्ठिकना भवथी आरंभी अंत सुधी सर्व वृत्तान्त जणाव्यो ॥१६३॥

प्राज्यं राज्यं शुद्धदानाद्, दयातो रूपमुत्तमम् । दुष्टं कुष्ठं भवद्देहे—ऽभवद्देवविलेपनात् ॥१६४॥

अर्थ—परोपकार रसिक ते मुनिराजे विशेषमां जणाव्युं के—“तें पूर्वे खेडुतना भवमां मुनिने शुद्ध दानथी प्रतिलाभ्या हता, तेना



प्रभावथी आ भवमां तने श्रेष्ठ राज्य प्राप्त थयुं छे, अने दयागुणथी उत्तम रूप मळ्युं छे. पण पूर्वे तुं कांतिपुरी नगरीमां रुद्रदत्तनो सोम ना मनोपुत्र थयो हता, ते भवमां तें देवद्रव्यरूप चंदननुं शरीरे विलेपन कर्युं हतुं, तेथी आ भवमां तारा शरीरे दुष्ट कोढ रोग थयो छे” ॥१६४॥

श्रुत्वेति भूपतिर्भीतः, प्रणिपत्य यतेः पदौ । बभाषेऽस्मान्महापापाद्, मुने ! मोचय मोचय ॥१६५॥

अर्थ—आ प्रमाणे मुनिना मुखथी पोताना पूर्वभवनो संबंध सांभळीने राजा पापथी भय पाय्यो, अने मुनिना चरणकमळमां पडी गद् गद् स्वरे बोल्यो के—‘हे कृपासिंधो ! मने आ महान् पापथी छोडावो छोडावो ॥१३५॥

परमेष्ठिमहामन्त्रं, नृपायोपादिशन्मुनिः । तस्यार्थं च प्रभावं च, विधिं च स्मरणेऽखिलम् ॥१६६॥

अर्थ—मुनिण राजाने पंचपरमेष्ठीरूप महामंत्रनो उपदेश कर्यो, तथा पंचपरमेष्ठीनुं ध्यान करतां तेनो अर्थ प्रभाव अने विधि सर्व सासीरीते समजाव्या ॥ १६६ ॥

देवस्वपातकाद् देव-प्रासादस्य विधापनात् । मुच्यते जन्तुरित्याख्यत्, प्रायश्चित्तं च शास्त्रवित् ॥१६७॥

अर्थ—तथा शास्त्रना जाणकार ते मुनिराजे देवद्रव्य विनाशनुं प्रायश्चित्त पण जणाव्युं के—‘देवद्रव्यनो विनाश करनार प्राणी देव-मंदिर करवाथी ते पापथी छूटे छे ॥१६७॥

अथ राजा पुरे स्वोद्ये, स्थापयित्वाऽऽग्रहाद् यतिम् । यथोपदेशमारेभे, महामन्त्रस्मृतिं ततः ॥१६८॥

अर्थ—त्यारबाद् राजाण मुनिराजने अत्यन्त आग्रह करी पोताना नगरमां राख्या, अने तेओश्रीण जेवी विधिण उपदेश आय्यो ते

प्रमाणे पंचपरमेष्ठी महामंत्रं निरंतरं ध्यानं करवानो आरंभं कर्ष्ये ॥१६८॥

षड्भिर्मासैर्नृपस्याऽभूत्, कायः काञ्चनकान्तरुक् । राज्यं गजाश्वकोशादि-वृद्ध्या भेजे विशालताम् ॥१६९॥

अर्थ—पंचपरमेष्ठीं ध्यानं करतां छ मासमां चन्द्रादित्यं शरीरं सुवर्णं सदृशं मनोहरं कांतिवाळं थइ गयुं, अने हाथी घोडा तथा भंडार विगेरेनी वृद्धिं थवाथी राज्यं पण विशालं थइ गयुं ॥ १६९ ॥

शीर्षेऽथ चित्रकूटस्य, प्रासादं परमेशितुः । सुपर्वपर्वतोत्तुङ्ग-शृङ्गं प्रारभयन्नृपः ॥ १७० ॥

अर्थ—त्यारबाद चन्द्रादित्य राजाए चित्रकूट पर्वतना शिखर उपर परमात्मा जिनेन्द्रप्रभुं मेरु पर्वत समान उंचा शिखरवाळं दे-रासर बंधाववानी शुरुआत करी ॥ १७० ॥

मुनिपार्श्वे निविष्टस्य, क्षमापतेः पुरतोऽन्यदा । प्रदर्शयन् स्वयं कश्चित्, कूम्भकारो जगाविति ॥१७१॥

अर्थ—एकदिवस मुनिराज पास राजा बेठो हतो, तेवामां तेनी आगळ एक गधेडाने बतावता कोइकुंभारे आवीनेकहुं के-॥१७१॥

राजन्नित्यं वहन् वारी, स्वयं शैले चटत्यसौ । को हेतुरिति भूपोऽपि, श्रुत्वा पप्रच्छ तं मुनिम् ॥१७२॥

अर्थ—हे राजन् ! आ गधेडो हमेशां पाणीने वहन करतो आ पर्वत उपर पोतानी मेळे चडे छे तेनुं थुं कारण हसै ? . राजाए पण आ वृत्तान्त सांभळी आश्चर्यचकित थइ मुनिराजने पूछयुं ॥१७२॥

स एव केवली तावत्, तत्रागाद् मुनि भूपती । तेन कूम्भकृता युक्तौ, नन्तुं तमथ जग्मतुः ॥१७३॥

अर्थ—ते दरम्यान तेज केवली भगवान् के जेमणे अयोध्या नगरीमां पर्षदामां कहेलो चन्द्रादित्यना पूर्वभवानो वृत्तान्त मुनिराजे सांभळ्यो हतो, तेओ चित्रपुरी नगरीमां पधार्या. केवली भगवाननुं आगमन सांभळी राजा अने मुनिराज ते कुंभार सहित केवली भगवानने वंदन करवा माटे गया ॥ १७३ ॥

खरस्वरूपं भूपेन, पृष्ठः केवल्यथाऽखिलम् । समुद्रसिंहवृत्तान्त— मुक्त्वा मूलात् पुनर्जगौ ॥ १७४ ॥

अर्थ—ते केवली भगवानने वंदन करी राजाए गधेडानुं स्वरूप पूछ्युं, त्यारे केवली भगवाने समुद्रपाल अने सिंहनुं समस्त वृत्तान्त आदिथी अंत सुधी कह्युं, अने जणाव्युं के—॥१७४॥

सिंहजीवः सको भुक्त्वा, संसारे घोरवेदनाः । पुरेऽत्रैवाल्पकर्मत्वात्, षट्कृत्वोऽथ खरोऽजनि ॥१७५॥

अर्थ—ते सिंहनो जीव संसारमां तीव्र वेदनाओ भोगवी, आज नगरमां अल्पकर्मपणाथी छ वार गधेडो थयो ॥१७५॥

भवे सप्तमके भूत्वा, त्रीन्द्रियोऽसौ ततः पुनः । खरोऽवशिष्टकर्मत्वात्, षट्कृत्वोऽत्र पुरेभवत् ॥१७६॥

अर्थ—त्यार बाद सातमा भवमां तेन्द्रिय थइ, अवशेष रहेला कर्मथी पाछो छ वार आज नगरमां गधेडो थयो ॥१७६॥

सहस्रा द्वादशाऽनेन, देवद्रव्यं विनाशितम् । तत्कर्मशेषतस्तावत्, कृत्वाऽसावीदृशोऽजनि ॥१७७॥

अर्थ—आ सिंहना जीवे बारहजार सोनैया देवद्रव्यनो विनाश कर्यो हतो, ते कर्मना शेषथी ते तेटलीवार नीच भवमां उत्पन्न थयो छे ॥१७७॥

प्रतिजन्माऽद्रिभृङ्गेऽस्मिन्, कर्मकार्यकृते सदा । चटनाभ्यासतोऽत्राद्रौ, स्वयमेव चटत्यसौ ॥१७८॥

अर्थ—दरेक जन्ममां आ पर्वतना शिखर उपर वैतरुं करवा माटे हमेशां चढवाना अभ्यासथीं आ भवमां पण आ गधेडो पर्वत उपर पोतानी मेळे चढी जाय छे ॥ १७८ ॥

श्रुत्वेति भूपतिस्तस्य, सारार्थं कृपया ददौ ! शिक्षां कुम्भकृते सोऽपि, यत्नात्तं पर्यपालयत् ॥ १७९ ॥

अर्थ—आ प्रपाणे राजाए गधेडानुं वृत्तांत श्रवण करी दया आववाथी तेनी सारवार माटे कुंभारने शिखामण आपी, त्यारथी कुंभार पण तेनुं सारी रीते पालन करवा लाग्यो ॥ १७९ ॥

अथासौ भद्रकस्वान्तो, मृत्वा ग्रामे मुरस्थले । ग्रामणीर्भानुनामाऽभूद्, राज्ञा निर्वासितोऽन्यदा ॥१८०॥

अर्थ—तदनन्तर भद्रक मनवाळो गधेडो मरण पासीने मुरस्थल गाममां भानु नामनो गामनो मुखी थयो, त्यां कोइपण कारणसर राजानो अपराधी बनवाथी एक दिवसे राजाए गाममांथी काढी मूक्यो ॥ १८० ॥

गङ्गावर्ते स्थितः सोऽथ, वृत्तिलोपमसासहिः क्रूरकर्माऽर्जितैरेव, द्रव्यैः स्वं निरवीवहत् ॥१८१॥

अर्थ—राजाए गाममांथी काढी मूकेलो भानु गंगाने कांठे रहेवा लाग्यो, अने पोतानी चालु अजीविकानो नाश नहीं सहन थवाथी पापथी भरपूर क्रूर कार्याथी पैसा उपार्जन करी ते वडे पोतानो निर्वाह चलाववा लाग्यो ॥१८१॥

श्रीशत्रुंजययात्रातो, निवृत्तः कोऽपि बाडवः । पत्नी-पुत्रयुतस्तत्र, रात्रौ ग्रामे समेतवान् ॥१८२॥

अर्थ—एक दिवसे श्रीशत्रुंजय तीर्थनी यात्रा करी पाळो फरेलो कोइ ब्राह्मण पोतानी स्त्री अने पुत्र सहित ते मुरस्थल गाममां रात्रे आव्यो १८२

भक्तदत्तां गृहीत्वा गां, सोऽन्त्ययामे चलंस्ततः । गो-पत्नी-पुत्रयुक् तेन, दुष्टेनाऽघाति भानुना ॥१८३॥

अर्थ—त्यां पोताना कोइ भक्ते आपेल गायने ग्रहण करी ते ब्राह्मणे रात्रिना छेला पहोरने विषे पोताना गाम तरफ जवा प्रयाण कर्युं, तेवामां ते दुष्ट भानुए आवीने गाय, पत्नी अने पुत्र सहित मारीनाख्यो ॥१८३॥

ततः पापो पलाय्याऽगाद्, गङ्गावर्ते यदा तदा । शीतर्तौ सायमद्राक्षीत्, कायोत्सर्गस्थितं मुनिम् ॥१८४॥

अर्थ—त्यांथी महारौद्र अध्यवसायी भानु नासीने गंगाने कांठे पोताने स्थाने चाल्यो गयो, गंगाने कांठे सायंकाले शियाळानी ठंडी ऋतुमां एक मुनिराजने काउसग ध्याने उभा रहेला जोया ॥१८४॥

अहो ! कियच्चिरं कष्ट-मसावत्र सहिष्यते ? । इति विस्मयवांस्तस्थौ, तत्र यामचतुष्टयम् ॥१८५॥

अर्थ—शियाळानी कडकडती ठंडीमां सायंकाले काउसग ध्याने उभा रहेला महात्माने जोइ भानु विचार करवा लाग्यो के—‘अहो ! आ मुनिराज केटलो वखत आवा प्रकारनुं कष्ट सहन करशे ?’ एम आश्चर्ययुक्त बन्यो छतो त्यांज रात्रिना चार पहोर रह्यो ॥१८५॥

प्रातः स पारितोत्सर्गः, प्रणम्याऽप्रच्छि भानुना । किं कार्यं प्राज्यराज्येन, यदेवं तपसे तपः? ॥१८६॥

अर्थ—प्रातः समये मुनिए काउसग पार्यो, त्यारे भानुए नमस्कार करीने पूछ्युं के—‘ महाराज ! शूं तमारे कोइ मोडुं राज्य मेळ-ववुं छे के जेथी आवी घोर अने असह्य तपश्चर्या करो छो ? ’ ॥१८६॥

मुनिः प्रोचे न राज्येन, कार्यं नरकहेतुना । किन्तु मोक्षकृते सर्व-साधुभिस्तप्यते तपः ॥ १८७ ॥

अर्थ—मुनिए जवाब आप्यो के—‘नरक गति प्राप्त थवाना कारणभूत राज्यनुं मारे कांइ पण काम नथी, परंतु सर्वे साधुओ मोक्ष मेळववा माटे तपश्चर्या करे छे’ ॥१८७॥

को भोक्ष इति तेनाऽपि, पृष्टः साधुरभाषत । संसार—मोक्षयोर्व्यक्तं, स्वरूपं बहुयुक्तिभिः ॥ १८८ ॥

अर्थ—भानुए पूछ्युं के—‘मोक्ष एटले शुं? त्यारे मुनिराजे तेने संसार अने मोक्षनुं स्पष्ट स्वरूप घणीज युक्तिपूर्वक समजाव्युं’ ॥१८८॥

असौ जन्मजरामृत्यु—मुख्यक्लेशसहस्रभूः । चतुर्गतिकसंसारः, कस्य स्यान्न विरक्तये ? ॥ १८९ ॥

अर्थ—वळी जणाव्युं के जन्म जरा अने मृत्यु विगेरे हजारो दुःखथी गहन बनेला चार गतिरूप आ संसारथी कोने वैराग्य न थाय?

शाश्वताऽनन्तसौख्यश्री—निवासं वासवा अपि । स्वर्गसौख्यमनादृत्य, याचन्ते मोक्षेभूत्तसम ॥१९०॥

अर्थ—शाश्वता अने अनन्ता सुखरूप लक्ष्मीनुं निवास स्थान मोक्ष छे, आ मोक्षसुख पासे स्वर्गसुख पण तुच्छ छे अने तेथीज इन्द्रो पण स्वर्गसुखनो अनादर करी आवा अनुपम मोक्षने माटे याचना करी रह्या छे ॥ १९० ॥

परं स प्राप्यते प्रायः, कृतैः सुकृतकर्मभिः । मुख्यं तेष्वपि सर्वज्ञैः, सर्वसत्त्वकृपोच्यते ॥१९१॥

अर्थ—इन्द्रो पण जेनी पासे पोतानुं स्वर्गसुख तुच्छ समजी जेने माटे तलसी रह्या छे एवो उत्तमोत्तम मोक्ष प्रायः सुकृत कर्मो वडे जीवो प्राप्त करे छे. ते सुकृतकर्मोमां पण सर्व जीवो उपर करुणाभाव राखवो ए मुख्य सुकृतकर्म सर्वज्ञोए कह्युं छे ॥१९१॥

कृपाधिकारे जीवानां, हिंसाऽहिंसाफलं तथा । उपादिष्टं यथा भानु—श्रकम्पे निजसपकैः ॥ १९२ ॥

अर्थ—आ प्रमाणे जीवदयाना अधिकारमां प्राणीओने हिंसा करवाथी केवां माठां फळ भोगववां पडे छे, अने दया राखवाथी केवां अनुपम सुख भोगवे छे ते सर्वनुं एवं स्पष्ट स्वरूप ते मुनिराजे समजाव्युं के जेथी भानु पोताना करेला पापथी कंपवा लाग्यो १९२
यावज्जीवमथादाय, हिंसानियममुत्तमम् । साधुं स्वाऽवसथे नीत्वा, शुद्धान्नैः प्रत्यलाभयत् ॥१९३॥

अर्थ—हवे ते मुनिराज पासे जींदगी पर्यंत हिंसाना उत्तम नियमने ग्रहण करी, साधु महाराजने पोताने वेर लइ जइ शुद्ध अन्नथी प्रतिलाभ्या ॥
एवं तेनाऽर्जितं भोग-फलं कर्म ततोऽनिशम् । कृपावान् पूज्यते लोका-दासस्वो जीविकां व्यधात् ॥१९४॥

अर्थ—आ प्रमाणे तेणे अहिंसाव्रत ग्रहण करवाथी अने मुनिराजने भावपूर्वक वहोराववाथी भोगरूपी फळ आपनारुं शुभ कर्म उपार्जन कर्युं. त्यार पछी निरंतर दयावाळो ते लोकोमां माननीय थयो, अने लोको पासेथी शुद्ध नीतिपूर्वक द्रव्य मेळवी पोतानी आ-जीविका चलाववा लाग्यो ॥ १९४ ॥

प्रान्ते मृत्वा दानपुण्याद्, राजन्! राजा भवानभूत् । शुद्धजोवदयापुण्याद्, रूपनिर्जितमन्मथः ॥ १९५ ॥

अर्थ—हे राजन्! आयुष्य पूर्ण थतां भानु मरण पासी, मुनिराजने दान आपवाना मुण्यथी नाभक नामनो तुं राजा थयो छे, अने शुद्ध जीवदया पाळी उपार्जन करेला पुण्यथी कामदेव करतां पण तने अधिक रूप प्राप्त थयुं छे ॥१९५॥

चन्द्रादित्योऽपि सम्पूर्ण-निर्मापितजिनालयः । प्रायश्चित्तेन शुद्धात्मा, सौधर्मे त्रिदशोऽभवत् ॥१९६॥

अर्थ—पूर्वभवमां देवद्रव्यनो विनाश करवाथी कोढियो थयेलो चित्रपुरी नगरीनो राजा चन्द्रादित्य के जे मुनिराजना उपदेशथी पर-

मेष्ठी महामंत्रं ध्यान करी छ मासमां कांचन जेवी कांतिवाळो थयो हतो, तेणे चित्रकूट पर्वतना शिखर उपर आरंभेल जिनालय संपूर्ण करावुं. आवी रीते प्रायश्चित्त करो शुद्धात्मा थयेलो ते मरण पामी सौधर्म देवलोकमां देव थयो ॥१९६॥

त्वं तत्रैव भवे मूर्त-पुण्यवाजिनमन्दिरम् । पातयित्वा पुरस्याऽस्य, परितो दुर्गमातनोः ॥१९७॥

अर्थ—हे नाभाकराजा ! तुं भानुना भवमां मुरस्थल गाममां मुखी हतो तेज भवमां तें साक्षात् पुण्यस्वरूप जिनमंदिरने पाडी नाखी गामनी चारे बाजु किल्लो बनान्यो हतो ॥१९७॥

भूपैवं तत्र विप्रस्त्री-भ्रूणगोतीर्थघातिनः । पञ्चहत्या इमाः सर्वाः, पुण्यविघ्ननिबन्धनम् ॥१९८॥

अर्थ—हे राजन् ! आ प्रमाणे भानुना भवमां तें विप्रघात, स्त्रीघात, बालघात, गौघात, अने तीर्थघात, आवी रीते पांच मोटी हत्याओ करी हती, आ सर्व हत्याओ तने आ भवमां पुण्यनुं विघ्न थवानुं कारणभूत थयेली छे ॥१९८॥

तत्राऽपि यात्राविघ्नस्य, तीर्थहृत्यैव कारणम् ! अतस्तदपनोदाय, प्रायश्चित्तमिदं शृणु ॥ १९९ ॥

अर्थ—तेओमां पण तने शत्रुंजयनी यात्रामां आवी पडेल विघ्ननुं कारण तो तीर्थहत्याज छे तेथी तेने दूर करवा माटे आ प्रकारे प्रायश्चित्त सांभळ ॥ १९९ ॥

तपोऽभूद् वार्षिकं मूल-मादिदेवस्य वारके । अष्टमास्यधुना भावि-वारे षाण्मासिकं ततः ॥२००॥

अर्थ—तीर्थकर श्रीआदीश्वर प्रभुना वारामां मूळ बार मासी तप हतो, अत्यारे आठ मासी तप छे, अने भाविकाळमां छ मासी तप थशे ॥२००॥

सर्वोत्कृष्टं तपः प्रायश्चित्तमेतदुदोरितम् । विशेषस्तु तीर्थहत्या-कृतां तीर्थविधापनम् ॥ २०१ ॥

अर्थ—सर्वथी उत्कृष्ट प्रायश्चित्त उपर जणावेल तप कह्यो छे, विशेष एटलो के-तीर्थहत्या करनाराओए तीर्थ नी स्थापना करवी जोइए विशिष्टाभिग्रहाः प्रोक्तं, प्रायश्चित्तं चरन्ति ये । शत्रुंजयादितीर्थेषु, ते मुच्यन्तेऽखिलैः नसा ॥२०२॥

अर्थ—जेओ उपर कहेलुं प्रायश्चित्त विशिष्ट प्रकारना अभिग्रहो लइ शत्रुंजयादि तीर्थोमां जइ आचरे छे, तेओ समग्र पापथी मुक्त थाय छे ॥ इति श्रुत्वा नृपो दुर्ग-प्रवेशनियमं ललौ । आकार्य सर्वलोकं च, तत्रैवाऽतिष्ठिपत् पुरम् ॥२०३॥

अर्थ—आ प्रमाणे श्रीयुगंधरसूरिनो उपदेश सांभळी तेज वखते नाभाकराजाए किल्लामां प्रवेश करवानो नियम ग्रहण कर्यो, अने सर्व प्रजावर्गने बांलावी त्यांज नगर वसाव्युं ॥२०३॥

स्थापयित्वा गुरुस्तत्र, जग्राहोऽभिग्रहानिति । यावद्यात्रां विधायाऽत्रा-यामि तावत् क्षितौ शये ॥२०४॥

अब्रह्म दधि-दुग्धे च, वर्जयामि क्रमादिदम् । तीर्थ-ब्रह्मा-ऽपत्यहत्या—शुद्धयै मेऽभिग्रहत्रिकम् ॥२०५॥

परस्त्री मांस-मद्ये च, यावज्जीवमतः परम् । त्यक्तानि नियमा एते, स्त्री-गोहत्याविमुक्तये ॥२०६॥ त्रिभिर्विशेषकं ।

अर्थ—गुरुमहाराजने पण त्यांज राखी तेओश्री पासे नाभाकराजाए आ प्रमाणे अभिग्रहो ग्रहण कर्यो—ज्यां सुधीमां हुं श्रीशत्रुञ्जय तीर्थनी यात्रा करी पाछो अहीं आवुं त्यां सुधी पृथ्वी पर शयन करीश. तीर्थहत्यानी शुद्धि माटे यात्रा करीने पाछो आवुं त्यां पु-

धीमां मैथुननोत्याग करुं छुं, ब्राह्मणहत्यानी शुद्धि माटे दहीनो त्याग करुं छुं, अने बाल हत्यानी शुद्धि माटे दूधनो त्याग करुं छुं, स्त्रीहत्या अने गौहत्यानी शुद्धि माटे यावज्जीव परस्त्री मांस अने मद्यनो त्याग करुं छुं, ॥ २०४-२०५-२०६ ॥

नियोज्य स्वजनान्नव्य-प्रासादार्थे गुरोर्गिरा । एकान्तरोपवासैः सो-ऽष्टमासीतप आददे ॥ १०७ ॥

अर्थ—त्यार पछी गुरुमहाराजना उपदेशथी नवीन देरासर बंधाववा माटे पोताना माणसोने आज्ञा करी एकांतरे उपवास करवा पूर्वक तेणे अष्टमासी तप शरु कर्यो ॥ २०७ ॥

सिद्धि गतेऽथ प्रासादे-ऽष्टभिर्मासैः स काञ्चनाम् । श्रीआदिदेवप्रतिमां, स्थापयामास सोत्सवम् ॥१०८॥

अर्थ—आठ महिने देरासर पूर्ण थयुं त्यारे नाभाकराजाए ते देरासरमां म्होटा उत्सव पूर्वक श्रीऋषभदेव प्रभुनी सुवर्णमय प्रतिमा प्रतिष्ठित करावी ॥ २०८ ॥

तत्र विकालं सर्वज्ञ-मर्चयन् विधिवन्नृपः । मासाष्टकेन सम्पूर्णा-चक्रे शेषतपोऽखिलम् ॥२०९॥

अर्थ—पोते बंधावेला नवीन देरासरमां प्रतिष्ठित करावेली श्रीऋषभदेव सर्वज्ञनी प्रतिमानी हमेशां ऋण काल विधियुक्त पूजा करतां नाभाकराजाए आठ महिने बाकीनो तप पूरो कर्यो ॥ २०९ ॥

तीर्थहत्याविनिर्मुक्तः, शुभेऽहि भरतेशवत् । श्रीशत्रुंजययात्रार्थं, चचाल गुरुभिः सह ॥२१०॥

अर्थ—आ प्रमाणे अष्टमासी तप करवाथी अने नवीन देरासर बंधाववाथी तीर्थहत्याना पापथी मुक्त थयेल ते नाभाकराजाए शुभ

दिवसे चक्रवर्ती भरतेश्वर महाराजानी पेठे श्रीशत्रुंजय तीर्थनी यात्रा निमित्ते गुरु महाराज साथे त्यांथी प्रयाण कर्युं ॥ २१० ॥

चतुर्धाऽऽद्यप्रयाणेषु, मार्जारीषु, पदोपरि । समुत्तीर्णासु तद्धेतुं, पृष्ठाः श्रीगुरवोऽवदन् ॥ २११ ॥

अर्थ—श्रीशत्रुंजयनी यात्रा माटे नाभाकराजा प्रयाण करतो हतो तेवामां शरुआतमांज चार बिलाडी तेना पग आगळ थडने चाली गइ. राजाए गुरुमहाराजने तेनुं कारण पूछ्युं, त्यारे गुरुमहाराजे कहुं के-॥ २११ ॥

बालादिहत्याः स्वं भावं, पुण्यप्रत्यूहहेतवं ! दर्शयन्ति परं सिद्धि-ध्रुवं स्यादेकचेतसः ॥ २१२ ॥

अर्थ—“हे राजन् ! तें जे पूर्वे भानुना भवमां बालहत्यादि हत्याओ करी ते पापो पुण्यकार्यमां विघ्न करवा माटे पोतानो भाव भजवे छे, पण पुण्यकार्यमां प्रवृत्त थयेल दृढ चित्तवाळो खरेखर पोताना कार्यमां फत्तेह मेळवे छे” ॥ २१२ ॥

मत्त्वैवमेकचित्तः स-न्नादिदेवस्मृतौ नृपः । उपशत्रुंजयं प्रापा-ऽनवच्छिन्नप्रयाणकैः ॥ २१३ ॥

अर्थ—आ प्रमाणे गुरु महाराजनुं वचन हृदयमां सहहीने श्रीमान् आदीश्वरप्रभुना ध्यानमां एकाग्र मनवाळो नाभाकराजा अस्वलित प्रयाणथी श्रीशत्रुंजय पर्वत पासे पहोंच्यो ॥ २१३ ॥

दृग्विषयं तोर्थे प्राप्ते, निजसैन्यं निवेश्य सः । शुचिर्भूत्वाऽभितीर्थं च, पदानि कतिचिद्दौ ॥ २१४ ॥

सिंहासनेऽथ न्यस्याऽर्हद्र-त्रिम्बं सकलसङ्घयुक् । स्नपयित्वा ततः सर्व-पूजाभेदैरपूजयत् ॥ २१५ ॥

अर्थ—श्रीशत्रुंजय तीर्थं दृष्टिं पडयुं के तुर्त पोताना सैन्यने त्यांज स्थापन करी, शरीरे पवित्र थइ, तीर्थ सन्मुख केटलाएक डगला आगळ जइ, सर्व संघ सहित सिंहासनपर अरिहंत प्रभुनी प्रतिमा पधरावीने ते प्रतिमानी पखाळ करी पूजानी सर्व सामग्री वडे विधिपुरःसर पूजा करी ॥ २१४-२१५ ॥

स्वर्णरूप्ययत्रै रत्न-स्थालेऽथो मङ्गलाष्टकम् आलिख्याऽष्टोत्तरशत-वृत्तैः सानन्दमस्तवोत् ॥२१६॥

अर्थ—त्यार बाद रत्नना थाळमां स्वर्ण अने रूपाना जवोथी आठ मंगळ आलेखीने हृदयना उल्लासथी एकसो आठ श्लोको वडे भावपूर्वक प्रभुनी स्तुति करी ॥ २१६ ॥

शक्रस्तवेन वन्दित्वा; सिद्धार्द्रिं चाऽथ सद्गुरुन् । नत्वा स्वर्णमणिरत्न-मुक्ताभिस्तानवोवधत् ॥ २१७ ॥

अर्थ—त्यार बाद नमुत्थुणं वडे सिद्धाचलने वांदी, गुरु महाराजने नमन करी तेओने स्वर्ण, मणि, रत्न अने मोतीवडे वधाव्या ॥२१७॥

दत्त्वा यथेच्छमर्थिभ्यां, दानं मिष्टान्नभोजनैः । अतूतुषत् सर्वलोकान्, धार्मिकांश्च विशेषतः ॥२१८॥

अर्थ—याचक जनोने इच्छित दान आप्युं, तेमज मिष्टान्न भोजन वडे सर्व लोकोने संतुष्ट कर्यां, तेमां पण धार्मिक पुरुषोनी तो विशेष प्रकारे आदर सत्कार पूर्वक भक्ति करी तेओने संतोष उपजाव्यो ॥ २१८ ॥

ततोऽतिक्रान्त शेषाऽध्वा, पुरस्कृत्य गुरुं नृपः । रेजे चटन् गिरिं मुक्त्यै, प्रस्थानं साधयन्निव ॥२१९॥

अर्थ—त्यार पछी बाकीनो मार्ग उलंघन करी गुरु महाराजने आगळ करी जाणे मुक्तिने माटे प्रस्थान साधतो होयनी! तेवी रीते

शत्रुंजय उपर चढतो राजा शोभवा लाग्यो ॥२१९॥

प्रासाददर्शने पूर्व-सपूर्वोत्सवपूर्वकम् । याचकेभ्यो ददहानं, कल्पवृक्षायते स्म सः ॥ २२० ॥

अर्थ—महा पवित्र तीर्थ श्री शत्रुंजय उपर चढतां प्रथम श्रीआदीश्वरप्रभुना देरासरनुं दर्शन थतांज अपूर्व उत्सव पूर्वक याचकोने दान आपतो ते नाभाक राजा साक्षात् कल्पवृक्ष समान देखावा लाग्यो ॥ २२० ॥

स्नात्रपूजाध्वजारोपा-ऽमारिस्नानाशनादिकम् । सर्वं सङ्घुपतेर्धर्म-कर्माऽष्टाहमपि व्यघात् ॥२२१॥

अर्थ—ते नाभाक राजाए अट्टाइ महोत्सव करी आठे दिवस स्नात्रपूजा, ध्वजारोपण, अमारिपडह, स्नान, स्वामिवात्सल्य विगेरे संघपतिनां धर्म कार्यों करी ॥ २२१ ॥

तीर्थसेवाचिकीर्भूमा-नापृच्छथाऽथ विधिं गुरुन् । धर्मध्यानैकलीनात्मा, त्रिकालं पूजयन् जिनम् ॥२२२॥

अहोरात्रं पवित्राङ्गो, महामन्त्रमसौ स्मरन् । साधून् साधर्मिकांश्चाऽपि, प्रतिपारणकं स्वयम् ॥२२३॥

सत्कारयन् यथायोग्यं, भक्तपानैर्यथोचितैः । मासेन दश षष्ठानि, निरम्भांसि वित्तेनिवान् ॥२२४॥ त्रिभिर्विशेषकम्

अर्थ—तीर्थसेवा करवानी इच्छा राखनार नाभाक नृपे गुरु महाराजने विधि पूछी, धर्मध्यानमां लीन आत्मावाळो थइ, त्रणे काल अरिहंत प्रभुनी पूजा करतां, पवित्र अंगवाळो थइ रात्रि-दिवस परमेष्ठी महामंत्रनुं स्मरण करता, दरेक पारणाना दिवसे साधुओने अने

साधर्मिक बंधुओने यथायोग्य उचित मोजन-पानथी सत्कार करता एक मासमां दस छठनी तपश्चर्या पाणी विना करी ॥२२२-२२३-२२४॥

दिने त्रिंशत्तमे ब्राह्म-मुहूर्ते तेन वीक्षिताः । चतस्रः पदिकामात्रा, मार्जार्यः कर्बुराः पुरा ॥ २२५ ॥

अर्थ—ते राजाए त्रीशमे दिवसे ब्राह्म मुहूर्तमां पोतानी आगळ पगला मात्र प्रमाणवाळी चार काबरा वर्णनी बिलाडि जोइ ॥२२५॥

ब्रह्मादिहत्या एतास्ताः, क्षीयन्ते तपसो बलात् । अनुमीयेति स प्राग्वद्, विदधेऽथाष्टमाष्टकम् ॥ २२६ ॥

अर्थ—“में पूर्वे भानुना भवमां करेली ब्राह्मण विगेरे हत्याओ तपस्याना प्रभावथी क्षीण थती जाय छे” ए प्रमाणे पूर्वनी जेम अनुमान करी आठ अठम कर्या ॥ २२६ ॥

तदन्ते कालमात्रास्ता, वीक्षिता धूसराः पुनः । मत्वा तथैव ताः प्राग्व-च्चकार दशमानि षट् ॥ २२७ ॥

अर्थ—आठ अठमने छेडे ब्राह्म मुहूर्तमां कोयलना परिमाणवाळी धूसर वर्णनी चार बिलाडी जोइ, त्यारे पण पूर्वनी जेम ‘ब्रह्महत्यादि हत्याओ क्षीण थती जायछे’ ए प्रमाणे मानी नाभाकराजाए छ चारउपवास कर्या ॥ २२७ ॥

तत्प्रान्ते मूषिकामात्रा, दृष्टास्ता धवलाः पुनः । ततो विशेषतो हृष्ट-श्चक्रे द्वादशपञ्चकम् ॥ २२८ ॥

अर्थ—छ चारउपवासनी तपश्चर्याने छेडे उंदरना प्रमाण जेटली चार धोळी बिलाडी जोइ, तेथी विशेष हर्षित थयेला नाभाकराजाए पांच पांच उपवास कर्या ॥ २२८ ॥

ईषन्निद्रान्तरेकोन-त्रिंशत्तमदिने ततः । नमस्कारान् स्मरन्नेव, स्वप्नमेवमलोकत ॥ २२९ ॥

अर्थ—त्यार बाद ओगणत्रीसमा दिवसे नमस्कारनुं स्मरण करतां करतांज थोडी निद्रा लीधी. निद्रामां एवुं स्वप्न जोयुं के—॥२२९॥

क्वाऽपि स्फटिकशैलेऽहं, सोपाने प्रथमे स्थितः ! केनाप्यतीववृद्धेन, कृशेन लोठितः परम् ॥ २३० ॥

प्राप्तो द्वितीयसोपानं, तृतीयं च गतस्ततः । शैलशृङ्गमथारुह्य, मुक्तराशौ निविष्टवान् ॥ २३१ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—“हुं कोइ स्फटिक पर्वत उपर पहेले पगथीये चड्योहतो, तेवामां कोइ एक कृश अने अत्यंत वृद्ध पुरुषे धको मारी गबडाव्यो, परंतु नीचे जवाने बदले उलटो बीजे पगथीये प्राप्त ययो, त्यार पछी त्रीजे पगथीये चड्यो, क्रमसर पर्वतना शिखर उपर चडी छेवटे मुक्तिमां जइ बेठो”

प्रभो ! फलं किमस्येति, पृष्टः श्रीगुरवो जगुः । स्फटिकाद्रिर्जिनधर्मः, सोपानं मानुषो भवः ॥ २३२ ॥

अर्थ—आ प्रमाणे आश्चर्यकारी स्वप्न जोइ जागृत थयेला नाभाक राजाए प्रातःकाले मुनिराजने पूछयुं के—‘प्रभो! आ स्वप्ननुं फळ थुं?’त्यारे गुरुमहाराजे कहुं के—“जे तुं स्फटिक पर्वत उपर चड्यो ते जिनधर्म जाणवो, ते पर्वतना पहेला पगथीया रूप मनुष्य जन्म समजवो । २३२।

अतो धर्माच्च यत्नेना—ऽन्तरायस्वल्पकर्मणा । पात्यमानोऽपि सत्त्वेना—ऽच्युतस्त्वं स्वर्गमिष्यसि ॥ २३३ ॥

अर्थ—आ जिनधर्म रूपी स्फटिक पर्वतना पहेला पगथीयाथी अंतराय रूपी स्वल्प कर्म वडे गबडावातो छतां सत्त्व वडे इड रहेलो तुं पतित नहीं थयो छतो देवलोक रूपी बीजे पगथीये जइश ॥ २३३ ॥

ज्ञानं तृतीयसोपानं, नृभवेऽवाप्य केवलम् । सर्वकर्मविनिर्मुक्तो, मुक्तराशौ निवेक्ष्यसि ॥ २३४ ॥

नाभाक

॥ ५६ ॥

अर्थ-देवलोकमांथी च्यवी मनुष्यभवमां आवेलो तुं सर्व कर्मोथी रहित थयो छतो व्रीजा पमथीया रूप केवलज्ञान पामी मोक्षराशिमां प्रवेश करीश परं तत् प्राक्तनं कर्म, च्छद्मस्थत्वान्न बुध्यते । अतः पृच्छ विदेहेषु, श्रोमत्सीमन्धरं जिनम् ॥ २३५ ॥

अर्थ-परंतु हुं छद्मस्थ होवाथी तें पूर्वे करेलुं ते अन्तराय कर्म जाणी शकतो नथी, माटे महाविदेह क्षेत्रमां विराजमान श्रीसीमंधर प्रभुने पूछ' प्राप्नोमीदृक्कथं राज्ञे-त्युक्ते श्रीगुरवोऽवदन् । भवत्पुण्यप्रभावेण, भवितेत्यचिरादपि ॥ २३६ ॥

अर्थ-नाभाकराजाए पूछयुं के-‘श्रीसीमंधर स्कामी पासै केवीरीते जवाय?’. त्यारे गुरुमहाराज बोल्या के-‘तमारा पुण्यना प्रभावथी थोडाज वखतमां तमारे त्यां जवानुं थशे’ ॥ २३६ ॥

एतद्विशेषलाभाया-दिदिशे गुरुणा तदा । अन्यथा केवलिप्रश्नात्, पूर्वविद् बुध्यतेऽखिलम् ॥ २३७ ॥

अर्थ-ते वखते नाभाक राजाना विशेष लाभ माटे युगंधरसूरिए उपर प्रमाणे कथुं, नहींतर चौद पूर्वना जाणकार तो केवली भगवानने पूछवार्थी सर्व वात जाणी शकें छे ॥ २३७ ॥

अथाऽन्तरायविच्छिद्यै, पारणाहेऽप्युपोषितः । ईषन्निद्रां गंतो याव-जागर्ति स निशात्यये ॥ २३८ ॥

तावद्वीक्ष्य महारण्ये, पतितं स्वं व्यचिन्तयत् । हा हा! कथं स एवाऽय-मन्तरायः समापतत् ॥ २३९ ॥ युगमम् ।

अर्थ-त्यार बाद अंतराय कर्मनो विच्छेद करवा माटे राजाए पारणाने दिवसे पण उपवास कर्यो, अने धर्मध्यान पूर्वक रात्रे सुइ गयो. थोडी निद्रा करी रात्रिना छेले पहारे जेवामां जागे छे तेवामां पोताने एक मोटी विकट अटवीमां पडेलो जोइ विचारवा लाग्यो के-

चरित्रं

॥ ५६ ॥

अरेरे! शुं मने गुरु महाराजे जे अंतराय कर्म कहुं हतुं तेज उदयमां आवी पड्युं ? ॥ २३८-२३९ ॥

अथवाऽलं विषादेन, श्रीशत्रुञ्जयनायकम् । नत्वा श्रीऋषभदेव-मादास्ये भक्तपानकम् ॥ २४० ॥

अर्थ—अथवा विशेष खेद करवाथी शुं वळवानुं छे?. श्रीशत्रुंजय तीर्थना अधिराज भगवान् श्रीआदीश्वरप्रभुने वंदन कर्या बाद हुं भोजन अने जल वापरीश ॥ २४० ॥

निश्चत्येत्यनुपानत्कः, क्षरद्रक्ताकुलक्रमः । तपःक्रान्तस्तृषाक्लान्तः, परिश्रान्तः क्षुधार्दितः ॥ २४१ ॥

मध्याह्नातपसंतप्त-वालुकाभिः पथि ज्वलन् । अनिर्विण्णमना देव-ध्यानादेव चचाल सः ॥ २४२ ॥ युग्मम् ।

अर्थ—आ प्रमाणे पोते दृढता पूर्वक नियम ग्रहण करी, पगरखां रहित होवाथी अटवीमां चालतां लोहीथी खरडायेला पगवाळो, तडकाथी आकुल बनेलो, तृषाथी शरीरे ग्लानि पामेलो, चालतां चालतां थाकी गयेलो, भूखथी पीडायेलो, अने खरा बपोरना तडकाथी तपी गयेली रेती वडे पगे रस्तामां बळतो छतो पण चित्तमां जरा पण खेद नहीं लावतो ते धैर्यवान् नाभाकराजा आदीश्वर प्रभुनुं ध्यान धरतो थको आगळ चालवा लाग्यो ॥ २४१-२४२ ॥

अपराहे पुरः क्वापि, कयाचिन्नवनिस्त्रिया । ढौकितं न फलमादत्, सत्त्वान्नाऽपि पयः षपौ ॥ २४३ ॥

अर्थ—राजा अगाडी चाल्यो जायछे तेवामां बपोर पछीना समयमां कोइक नवीन स्त्रीए आवी तेनी सन्मुख सुंदर फळ तथा शीतल जळ मूक्युं, पण तेने श्रीआदीश्वरप्रभुनुं दर्शन कर्या सिवाय कांइपण वस्तु खावानो तथा जल पीवानो दृढ नियम होवाथी सत्त्वशाळी

ते महापुरुषे फळ खाधुं नहीं तेम जळ पण पीधुं नहीं ॥ २४३ ॥

तया सह महःस्तोम-व्योमव्यापिनि मन्दिरे । आश्चर्यपरिपूर्णान्तः, स्वच्छेन मनसा ययौ ॥ २४४ ॥
अर्थ—त्यारबाद अश्चर्यथी पूर्ण बनेला हृदयवाळो नाभाक आकाशमां व्यापी रहेला तेमज झळहळाट वाळा एक महेलमां ते स्त्री साथे स्वच्छ चित्ते गयो ॥ २४४ ॥

स तत्र चित्रकृद्रुपाः, सारशृङ्गारहारिणीः । हरिणाक्षीर्निरैक्षिष्ट, विलसन्तीः सहस्रशः ॥ २४५ ॥
अर्थ—पोताने अपरिचित ते नूतन प्रासादमां नाभाकराजाए आश्चर्य उत्पादक स्वरूपवाळी, उत्कट शृंगारथी चित्तने आकर्षण कर-
नारी, मनोहर विलास करती हजारो सुंदरीओने जोड ॥ २४५ ॥

तासां मध्यादथोत्थाय, स्वामिनी हंसगामिनी । योजितांज्जलिरभ्येत्य, सानुरागमदोऽवदत् ॥ २४६ ॥
अर्थ—ते मनहरणी सुंदरीओमांथी तेओनी स्वामिनी एक अग्रेसर स्त्री ऊठीने हंसनी जेवी मंद मंद गति करती नाभाकराजा पासे आवी, अने बे हाथ जोडी प्रेमपूर्वक बोली के-॥ २४६ ॥

अस्मदीयेन भाग्येन, समेतोऽसि गुणोदधे? । स्त्रीणां राज्यमिदं विद्धि, योऽत्रैति पतिरेव नः ॥ २४७ ॥
अर्थ—“हे गुणसमुद्र! तमे अमारा भाग्यथीज अहीं पधार्यां छो, आ स्त्रीओनुं राज्य छे, अने जे अहीं आवे छे तेने अमे पति तरीकेज मानीए छीए
श्रुत्वैति नृपतिर्दध्यौ, सङ्कटान्तरमागतम् । मौनमेवाऽत्र मे श्रेयो, मौनं सर्वार्थसाधनम् ॥ २४८ ॥

अर्थ—आ प्रमाणे स्नेह सहित प्रेमाळ वचनविलास सांभळी राजा विचारवा लाग्यो के—“आ वळी मारे माथे बीजुं संकट आवी पड्युं! ‘इतो व्याघ्र इतस्तटी’ ए न्याय प्रमाणे हुं पण अहीं सपडायो छुं. हवे आवा प्रसंगे मारे मौन धारण करवुं एज सर्वथा श्रेयस्कर छे, कारण के—मौन ए इच्छित वस्तुनुं साधन छे” ॥ २४८ ॥

इति तूष्णीं स्थिते भूपे, मुख्यादिष्टाः स्त्रियोऽपि ताः। स्नानभोजनसामग्रीं, सज्जोकृत्योपतस्थिरे ॥२४९॥

अर्थ—आ प्रमाणे ज्यारे राजाए मौन धारण करी कांइपण उत्तर आप्यो नहीं त्यारे ते मुख्य स्वामिनीए हुकम कराएल बीजी सुंदरीओ स्नान अने भोजननी सामग्री तैयार करी राजानी समक्ष लावीने उपस्थित थइ. अने कहुं के—॥ २४९ ॥

प्रसद्य सद्यः प्राणेश!, स्नात्वा भुक्त्वा यथारुचि। यावज्जीवं सहाऽस्माभि-भोगान् भुङ्क्त्वाऽकुतोभयः॥२५०॥

अर्थ—“हे प्राणेश! अमारा उपर जसदी कृपादृष्टि करी, यथारुचि स्नान अने भोजन करी अमारी साथे जींदगी पर्यंत भोग भोगवो, अहीं तमारे कोइ पण तरफथी कांइ पण भय राखवो नहीं” ॥ २५० ॥

एवं वदन्त्यः शीताम्भः, सिता-द्राक्षाम्भसी अपि। सिताघृतपुरस्निग्ध-पायसादि च तत्पुरः। २५१ ॥

प्रदर्श्य चाटुभिर्वाक्यै-रुपसर्गाननेकशः। पूर्वं कृत्वाऽनुकूलांस्ताः, प्रतिकूलानपि व्यधुः ॥ २५२ ॥ युग्मम्।

अर्थ—आ प्रमाणे बोलती छती ते मनहरणी सुंदरीओए नाभाक राजा आगळ शीतळ अने सुवासित जल, साकर अने द्राक्षानुं पाणी,

घी अने साकर नाखी स्वादिष्ट बनावेला दूधपाक विगेरे मिष्टान्न देखाडी मीठां मीठां प्रीतिपूर्वक वचनो वडे पहेलां तो अनेक अनुकूल उपसर्गो कर्या, अने त्यार पछी अनेक प्रतिकूल उपसर्गो करवा मांड्या ॥ २५१-२५२ ॥

तथाप्युक्षुब्धचेताः स, धर्मे यावदवस्थितः । श्रीशत्रुञ्जयभृङ्गस्थं, तावदात्मानमैक्षत ॥ २५३ ॥

अर्थ—ते स्त्रीओए अनेक अनुकूल अने प्रतिकूल उपसर्गो करवा छतां पण ज्यारे अस्खलित चित्तवाळो नाभाक जरा मात्र नहीं डगतां धर्म ध्यानमांज लीन रह्यो, तेवामां पोताने श्रीशत्रुंजय पर्वतना शिखर उपर रहेल जोयो ॥ २५३ ॥

अहो! किमेतदित्येवं, साश्चर्ये नृपपुङ्गवे । सौरभ्याकृष्टभृङ्गगालिः, पुष्पवृष्टिर्दिवोऽपतत् ॥ २५४ ॥

अर्थ—‘अहो! आ ते शं स्वप्न छे के साचो बनाव छे?’ ए प्रमाणे आश्चर्यमां गरकाव बनेलो नृपवर विचार करे छे तेवामां आकाशमांथी सुगंधीने लीधे खेंचाइ आवेला भमराओनी पंक्तिथी व्याप्त बनेला पुष्पोनी वृष्टि पडी ॥ २५४ ॥

पुरः सुरः स्फुरत्कान्तिः कश्चित् काञ्चनकुण्डलः । प्रादुर्भूयेत्यभाषिष्ट, कुर्वन् जयजयारवम् ॥ २५५ ॥

अर्थ—तथा तेनी सन्मुख सुवर्णना कुंडल धारण करनार देदीप्यमान कांतिवाळा अने ‘जय जय’ शब्द करता कोइक देवे प्रगट थडने कहुं के-

तव प्रशंसां सद्धर्मन्!, सौधर्मस्वामिनिर्मिताम् । असासहिरहं सर्व—मकार्षमिदमीदृशम् ॥ २५६ ॥

अर्थ—‘हे धार्मिक शिरोमणे! देवलोकमां सौधर्मेन्द्रे करेली तमारी प्रशंसा सहन नहीं थवाथी तमारी परीक्षा माटे में आवुं सर्व कार्य कर्युं छे ॥

तत् क्षमस्व महाभाग!, यदेवं क्लेशितो भवान् । तुष्टोऽस्मि तव सत्त्वेन, वरं वृणु वरं वृणु ॥ २५७ ॥

अर्थ—हे महाभाग्यशाली! जे में तमने दुःख आप्युं तेनी क्षमा करो, हुं तमारा सच्चथी संतुष्ट थयो लुं, माटे जे तमारे जोइए ते वरदान मागील्यो ॥

राजाऽवोचन्न याचेऽह—माप्तधर्मधनः परम् ! परं सीमन्धरस्वामि—निनंसां मम पूरयं ॥ २५८ ॥

अर्थ—राजाए कहुं के—“में धर्मरूपी अखूट खजानो प्राप्त करेलो होवाथी मारे मागवानुं कांइ रहुं नथी, पण मारे श्रीसीमंधरस्वामीने वंदन करवानी इच्छा छे ते पूर्ण कराव ॥ २५८ ॥

अथो देव—गुरुन्नत्वा, सत्त्वाधिकशिरोमणिः । नाकिक्लृप्तविमानेन, विदेहेषु ययौ नृपः ॥ २५९ ॥

अर्थ—त्यार बाद देवे विमान बनाव्युं, तेनी अंदर सत्त्वशाली पुरुषोमां शिरोमणि नाभाकराजा देव अने गुरुने नमस्कार करी बेठो, अने देवनी सहायथी ते विमानवडे महाविदेहक्षेत्रमां ज्यां श्रीसीमंधरस्वामी विराजेलो हता त्यां गयो ॥ २५९ ॥

तत्राऽष्टप्रातिहार्यश्री—सेव्यं सीमन्धरं जिनम् । नत्वाऽपृच्छच्चिरत्नो मे—ऽन्तरायः कोऽयमित्यसौ ॥ २६० ॥

अर्थ—त्यां आठ महाप्रातिहार्यरूप लक्ष्मीवडे सेवाता श्रीसीमंधर जिनेन्द्रने वंदन करी पूछ्युं के—“हे प्रभो! मने घणा लांबा काळथी शुं अंतराय कर्म लाग्युं छे?” ॥ २६० ॥

समुद्र-सिंहयोर्नाग-गोष्ठिकस्य च सा कथा । यथा युगन्धराचार्यैः, प्रोक्ता स्वामी तथादिशत् ॥ २६१ ॥

अर्थ—आ प्रमाणे नाभाकराजानो प्रश्न सांभळी प्रभु श्रीसीमंधरस्वामीए जेवीरीते युगंधराचार्ये समुद्रपालसिंह अने नागगोष्ठिकनी कथा कही हती तेवीरीते संपूर्ण कही ॥ २६१ ॥

पुनः प्राहः प्रभुर्भूषं, न पूर्वकृतकर्मतः । विमुच्येत क्वचित् कोऽपि, त्वमेवाऽस्य निदर्शनम् ॥ २६२ ॥
 अर्थ—वळी प्रभुए राजाने कळुं के-पूर्वभवमां उपार्जन करेला कर्मो भोगव्या सिवाय कोइ पण प्राणी कदापि छूटी शकतो नथी, ते संबंधमां तुंज पोते दृष्टांतरूप छे ॥ २६२ ॥

त्वया सिंहभवे यात्रा-ऽन्तरायोऽकारि बान्धवम् । धारयित्वा स विज्ञेयो, वृद्धः सोपानलोठकः ॥ २३६ ॥
 अर्थ—ते सिंहना भवमां तारा भाइ समुद्रपालने यात्रा करतां अटकावी अंतराय कर्षो हतो, अने तेथी ते अंतराय कर्म उपार्जन कर्युं हतुं, ते अंतराय कर्मज तने पहेले पगथीयेथी गबडावनार वृद्ध पुरुष जाणवो ॥ २६३ ॥

असौ नागस्य जीवोऽपि, चन्द्रादित्यभवे पुरा । क्षालिताऽखिलसत्कर्मा, सौधर्मेऽजनि निर्जरः ॥ २३४ ॥
 अर्थ—वळी जे आ तारीसाथे देव आवेलो छे ते नागश्रेष्ठीनो जीव छे, तेणे पहेलां चद्रादित्यना भवपां पुण्यकर्म कडे समग्र पाप प्र-
 क्षालन करी अत्यारे सौधर्मदेवलोकमां देवता थयो छे ॥ २३४ ॥

इति सीमन्धरस्वामि-मुखात्तौ चरितं निजम् । श्रुत्वा प्रीतौ जिनं नत्वा, शत्रुञ्जयमगच्छताम् ॥ २६५ ॥
 अर्थ—आ प्रमाणे सीमंधरस्वामीना श्रीमुखथी ते देव अने नाभाकराजा पोतपोतातुं चरित्र सांभळी घणा हर्षित थया, अने ते प्रभुने वंदन करी श्रीशत्रुंजय पर्वत उपर गया ॥ २६५ ॥

नाभाक

॥ ६३ ॥

तत्र श्रीआदिदेवस्य, स्नात्रपूजामहोत्सवम् । कृत्वाऽष्टाहत्रयं भक्त्या, तौ स्वं धन्यममन्यताम् ॥ २६६ ॥

अर्थ—शत्रुंजयपर्वत पर ते बन्ने जणाए त्रण अठवाडिया सुधी भक्तिपूर्वक श्रीआदीश्वर प्रभुनी स्नात्रपूजानो महोत्सव करी पोताना आत्माने भाग्यशाली मानवा लाग्या ॥ २६६ ॥

अथ शाश्वतपूजार्थं, सर्वाङ्गाभरणानि तौ । कारयित्वा महापूजा-क्षणेऽरोपयतां क्रमात् ॥ २६७ ॥

अर्थ—त्यार पछी शाश्वत पूजा माटे सर्व अंगना आभूषणो करावी ते महापूजा वखते आभूषणोने क्रमसर प्रभुना अंग उपर चढाव्या ॥

माणिक्यरत्नखचितां, दत्त्वा हैमीं महाध्वजाम् । अभङ्गरङ्गसङ्गीत-भक्तिं दर्शयतश्च तौ ॥ २६८ ॥

अर्थ—त्यार पछी माणेक अने रत्नोथी जडेली सुवर्णनी महाध्वजा चढावी अने अखंडित भावोल्लास पूर्वक संगीत गान करी प्रभुना उपर पोतानी अवर्णनीय भक्ति देखाडी आपी ॥ २६८ ॥

एवं निर्माय निर्मायौ, प्राज्यप्रौढप्रभावनाः । सर्वज्ञशासनौन्नत्यं, तौ व्यस्तारयतां चिरम् ॥ २६९ ॥

अर्थ—आ प्रमाणे कोइ पण प्रकारनी माया रहित पवित्र हृदये ते राजा अने देवे अत्यंत मोटी प्रभावना करी लांबा वखत सुधी सर्वज्ञ प्रभुना शासननी उन्नति विस्तारी ॥ २६९ ॥

अथाऽनन्तगुणोत्साह-बद्धरोमाश्चक्रञ्चुकः । नाभाकभूपतिर्धर्म-शालास्थानमशिश्रियत् ॥ २७० ॥

अर्थ—त्यार बाद अनंतगुणा उत्साहथी प्रफुल्लित रोमांचवाळा नाभाकराजाए धर्मशालाना स्थाननो आश्रय लीधो ॥ २७० ॥

चरित्रं

॥ ६३ ॥

तत्र न्यकृतकल्पद्रु-डिण्डिमोद्घोषपूर्वकम् । स्वमर्थमार्थिसात्तन्व-न्नदारिद्र्यं जगद् व्यधात् ॥ २७१ ॥

अर्थ—त्यां रही दान आपवा माटे पटहोद्घोषणा करावी, अने जेना दानगुण पासे कल्पवृक्षो पण हलका पडी गया एवा ते राजाए पोतानुं धन याचक जनोने आपतां सर्व जगत् अदारिद्र्य करी दीधुं ॥ २७१ ॥

अथ पुण्यपवित्रात्मा, क्षालिताऽखिलकश्मलः । गुरुभिः सह भूपालः, प्रतस्थे स्वपुरं प्रति ॥ २७२ ॥

अर्थ—हवे पुण्यवडे पवित्र आत्मावाळो ते नाभाकराजा पोताना समग्र पापनी शुद्धि करी गुरुमहाराज साथे पोताना नगर तरफ चाल्यो ॥

अनुपानद् गुरोर्वाम-भागेन पथि सञ्चरन् । दर्शयन्नुच्चनीचां च, भुवं भक्ताग्रणीरभूत् ॥ २७३ ॥

अर्थ—रस्तामां गुरुमहाराजने डाबे पडखे उघाडे पगे चालतो अने उंचाण-नीचाणवाळी पृथ्वीने बतावतो ते नाभाकराजा गुरुभक्त शिरोमणि थयो

चन्द्रादित्यसुरः सेना-मानं छत्रं वितानयन् । चामरांश्चालयन् पार्श्व-द्वये सद्गुरुभूपयोः ॥ २७४ ॥

संवर्तकाऽनिलेनाग्रे, कण्टकाद्यपसारयन् । गन्धोदकस्य वर्षेण, मार्गस्थं शमयन् रजः ॥ २७५ ॥

सुगन्धिभिः पञ्चवर्णै-र्दिव्यपुष्पैर्भुवं स्तृणन् । संचारयन् पुरस्थं च, योजनोच्चमहाध्वजम् ॥ २७६ ॥

एतयोरवमन्तारो, यास्यन्ति प्रलयं स्वयम् । एतत्पादाब्जनन्तारो, वर्द्धिष्यन्ते महाश्रिया ॥ २७७ ॥

इत्यम्बरगिरा साकं, दुन्दुभि दिवि ताडयन् । गुरुणां विद्ध्ये भक्तिं, सान्निध्यं च महीपतेः ॥ २७८ ॥ पञ्चभिः कुलकम्

अर्थ—चन्द्रादित्य देव पण सेनाना परिमाण जेटळुं छत्र विस्तारतो, सद्गुरुमहाराज अने राजाना बन्ने पडखे चामरो वींजतो-१२७४। संवर्तक वायरा वडे रस्तामां आगळ आगळ कांटा विगेरेने दूर करतो, सुगंधी पाणी वरसावी मार्गनी धूल शांत करतो ॥ २७५ ॥ गंधर्धी बहेकी रहेला पांच वर्णना दिव्य पुष्पोथी पृथ्वीने आच्छादित करतो, आगळ एक योजन प्रमाण उंची मोटी ध्वजा फरकावतो, ॥ २७६ ॥ “आ गुरुमहाराज अने राजानुं अपमान करनारा स्वयं नाश पामशे, अने एमना चरणकमलने नमस्कार करनार लोकोने महालक्ष्मीनी वृद्धि थशे” ॥ २७७ ॥ एवी आकाशवाणी साथे गगनमां दुंदुभिनो नाद करतो छतो गुरुमहाराजनी भक्ति करतो हतो, तेमज राजानुं सान्निध्य करतो हतो ॥ २७८ ॥

इत्थं प्रतिपदं नैक-भूपैः प्राभृतपाणिभिः । प्रवर्धमानभव्यश्री-नृपः प्रापन्निजं पुरम् ॥ २७९ ॥

अर्थ—आवीरीते मार्गमां चालतां पगले पगले अनेक राजाओ हाथमां भेटणां लइ नाभाकराजानुं सन्मान करवा लाग्या, अने तेथी वृद्धि पामती मनोहर लक्ष्मीवाळो राजा पोताना नगरमां आवी पहाँच्यो ॥ २७९ ॥

गुरवोऽपि ततो दत्त्वा, श्रीमन्नाभाकभूपतेः । सम्यक्त्वमूलश्राद्धाणु-व्रतानि व्यहरन् भुवि ॥ २८० ॥

अर्थ—त्यार बाद गुरुमहाराजे नाभाकराजाने सम्यक्त्वमूल श्रावकना अणुव्रत उचरावी शुद्ध श्रावक कर्यो, पछी गुरुमहाराजे बीजे विहार कर्यो अथ देवस्य सान्निध्याद्, वासुदेव इव स्वयम् । भूपालो भरतार्धस्य, त्रीणि खण्डान्यसाधयत् ॥ २८१ ॥

अर्थ—त्यार पछी चन्द्रादित्यदेवनी सहायथी नाभाकराजाए वसुदेवनी पेठे अर्थ भरतना त्रणे खंड साध्या ॥ २८१ ॥

भूमिपतिसहस्राणां षोडशानां च मूर्धनि । आज्ञां संस्थाप्य राज्यं स्व-धर्मं च समपालयत् ॥ २८२ ॥

अर्थ-नाभाकराजाए सोळ हजार राजाओ उपर पोतानी आज्ञा प्रवर्तावीने सम्यक् प्रकारे पोताना राज्यनुं अने धर्मनुं पालन करवा लाग्यो ॥

त्रिकालं देवमभ्यर्चन्, द्विसन्ध्यं सद्गुरुन्नमन् । षडावश्यककृत्यं च, तन्वन् राज्यफलं ययौ ॥ २८३ ॥

अर्थ-राजाए त्रण काळ प्रभुनी पूजा, अने सांज सवार सद्गुरु महाराजने वंदन तथा छ आवश्यक कृत्य करतां राज्यनुं शुभ फळ मेळव्युं ॥ २८३ ॥

प्रतिग्रामपुरं जैन-प्रासादास्तुङ्गतोरणाः । व्यधाप्यन्त नरेन्द्रेण, धर्मशालाः सहस्रशः ॥ २८४ ॥

अथ-ते राजाए दरेक गाम अने शहेरोमां उंचा तोरणवाळा जिगमंदिरो बंधाव्या, तेमज हजारो धर्मशाला बंधावी ॥ २८४ ॥

साहिलोकपरद्रोह-पैशून्यकलिमत्सराः । निर्मूलं वारिताः सप्त-व्यसनानि विशेषतः ॥ २८५ ॥

अर्थ-वळी ते राजाए पोताना राज्यमां निंदा, परद्रोह, चाडी, कजीओ, ईर्ष्या विगेरेनुं निर्मूल निवारण कर्युं, तथा सात व्यसनोनी तो विशेष प्रकारे निषेध कर्यो ॥ २८५ ॥

मिथ्यात्वं पापमन्यायं, विधत्ते मनसाऽपि यः । तस्य देवः स्वयं शिक्षां, दत्ते तत्क्षणमेव सः ॥ २८६ ॥

अर्थ-तेना राज्यमां कोइपण माणस मिथ्यात्व पाप अने अनीति मनशी पण करतो तो तेने चन्द्रादित्य देव तेज क्षणे शिक्षा करतो ॥

तद्देशवास्तव्यजना-स्ततः पुण्यैकबुद्धयः । राजवर्माऽनुवर्तन्ते, यथा राजा तथा प्रजाः ॥ २८७ ॥

नाभाक

॥ ६७ ॥

अर्थ—पुण्यमां लीन करेली बुद्धिवाळा ते देशना लोको राजाने मार्गे धर्म अने नीतिने अनुसरवा लाग्या, कारण के जेवो राजा थाय तेवी तेनी प्रजा होय छे ॥ २८७ ॥

एवं यथा यथा पृथ्व्यां, पुण्यवृद्धिस्तथा तथा । काले वृष्टिर्धान्यपुष्टि—बहुपुष्पफला द्रुमाः ॥ २८८ ॥

बहुक्षीरप्रदा गावो, बहुरत्नाश्च खानयः । व्यवसाया महालाभा, दूरदेशां सुसञ्चराः ॥ २८९ ॥

निरामया निरातङ्गा, महासौख्याश्चिरायुषः । पुत्रपौत्रादिसन्तान-वृद्धिभाजोऽभवन् जनाः ॥ २९० ॥ त्रिभिर्विज्ञेषकम्

अर्थ—आवी रीते पृथ्वीमां जेम जेम पुण्यनी वृद्धि थवा लागी तेम तेम सारीरीते समयसर वृष्टि थवा लागी, घणुं धान्य नीपजवा लाग्युं, वृक्षो घणा पुष्पो अनै फळ आपनारा थया ॥ २८८ ॥ गावो अधिक दूध आपवा लागी, खाणो घणा रत्नोवाळी थइ, व्यापारमां अतिशय लाभ थवा लाग्यो, घणा दूरना देशो पण सुखरूप मुसाफरी थइ शके तेवा थया ॥ २८९ ॥ तेमज लोको निरोगी, निर्भय, अत्यंत सुखी, लांबा आयुष्यवाळा अने पुत्र-पौत्रादि संततिनी वृद्धिवाळ थया ॥ २९० ॥


एवं तद्राज्यलोकानां, धर्मशर्मनिरीक्षणात् । ह्रियेव स्वर्गिणोऽभूव—न्नदृश्या धर्मवर्जिताः ॥ २९१ ॥

अर्थ—आवीरीते ते राज्यना लोको धर्मना प्रभावथी एटला सुखी हता के जे सुखने जोइ धर्मवर्जित देवो पण पोताने सुखरहित मानवा लाग्या, अने तेथी जाणे लज्जा आववाथी पोते अदृश्य थइ गया होयनी ! ॥ २९१ ॥

श्रीनाभाकनराधीशः, प्रपालयेति चिरं स्थिरम् । राज्यं प्राज्यं प्रान्तकाले, संसाध्याऽनशनं सुधीः ॥ २९२ ॥

चरित्रं

॥ ६७ ॥



अगाद् द्वादशकल्पेऽथ, नृजन्माऽवाप्य सेत्स्यति । देवोऽपि प्राप्य मानुष्यं, शाश्वतं सौख्यमाप्स्यति । २९३। युगम्
 अर्थ—आ प्रमाणे पुण्यशाली नाभाकराजाए पोताना विस्तृत राज्यने चिरकाल सुधी स्थिर रीते पालन कर्तुं, अंतकाले ते बुद्धिमान्
 राजा अणसण ग्रहण करी बारमा अच्युत देवलोकमां देव थयो, त्यांथी च्यवी मनुष्य जन्म प्राप्त करी सिद्ध थशे. चन्द्रादित्य देव
 पण देवलोकमांथी च्यवी मनुष्यपणुं प्राप्त करी मोक्षमां शाश्वतुं सुख पमशे ॥ २९३-२९३ ॥

श्रीनाभाकनरेन्द्रस्य, निशम्येदं कथानकम् । देवद्रव्याच्च दूरेण, नित्यं स्थेयं मनीषिभिः ॥ २९४ ॥


अर्थ—आ प्रमाणे श्रीनाभाकराजानी कथा सांभळीने बुद्धिमान् पुरुषोए देवद्रव्यथी तदन दूर रहेवुं उचित छे ॥ २९४ ॥

श्रीमदञ्चलगच्छेश—श्रीमेरुतुङ्गसूरिभिः । युगर्तुयुगभूसङ्ख्ये, वर्षे निर्मिता कथा ॥ २९५ ॥

अर्थ—श्रीमान् अंचलगच्छाधिपति श्रीमेरुतुंगसूरिए चौदसेने चोसठनी सालमां आ कथा रची ॥ २९५ ॥


आ ग्रंथ जामनगरनिवासी पंडित श्रावक हीरालाल हंसराजे स्वपरना श्रेयने माटे पोताना श्रीजैनभास्करोदय प्रेसमां छाप्यो.

॥ इति श्री श्रीनाभाकराजचरित्रं समाप्तम् ॥



3292

॥इति श्रीनाभाकराजचरित्रं समाप्तम्॥



श्री जैनभास्करोदय प्रिन्टिंग प्रेसमां छाप्युं—जामनगर.